



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



पोखरा-८ ज्ञानकुञ्ज मार्गमा अवस्थित ब्राह्मण समाज नेपालको केन्द्रीय कार्यालय भवन



बैशाख २०८३

नेपाल संवत् १९८६

APR/MAY 2026

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
व्रतवन्ध मुहूर्त: २०, २१ र २३ गते विवाह मुहूर्त: ७, ८, २२, २३, २४, २५, ३० र ३१ गते दोकानखोले दिन: ७, २१, ३१	रुद्री जुने दिनहरू: १, २, ६, ९, १०, १२, १५, १६, १७, १९, २२, २३, २४, २५, २७, ३० र ३१ गते	वैशाख संक्रान्ति तिथि: द्वादशी २१:३२ नक्षत्र: शतभिषा १३:३६ योग: शुभ करण: कौलव योगा: मृत्यु च.रा: कुम्भ सु.उ: ५:४३ सु.अ: १८:२७	प्रदोषव्रत तिथि: त्रयोदशी २०:४० नक्षत्र: पू.भा. १३:३४ योग: ब्रह्म ब्रम्हा करण: गर योगा: पद्म च.रा: ७:३७ सु.उ: ५:४२ सु.अ: १८:२८	चतुर्दशी तिथि: चतुर्दशी १९:२२ नक्षत्र: उ.भा. १३:०६ योग: ऐंद्र करण: भद्रा योगा: छत्र च.रा: मीन सु.उ: ५:४१ सु.अ: १८:२८	आमाको मुख हेर्ने दिन तिथि: औंसी १७:४२ नक्षत्र: रेवती १२:१५ योग: वैधृति करण: चतुष्पद योगा: श्रीवत्स च.रा: १२:१५ सु.उ: ५:४० सु.अ: १८:२९	वैशाख शुक्ल प्रारम्भ तिथि: प्रतिपदा १५:४६ नक्षत्र: अश्विनी ११:०५ योग: प्रीति करण: बालव योगा: सौम्य च.रा: मेष सु.उ: ५:३६ सु.अ: १८:३०
श्रीपरशुरामजयन्ती तिथि: द्वितीया १:३१ नक्षत्र: भरणी ९:४१ योग: आयुष्मान करण: तैत्तिल योगा: काल च.रा: १५:१८ सु.उ: ५:३८ सु.अ: १८:३०	अक्षय तृतीया तिथि: तृतीया ११:१० नक्षत्र: कुत्तिका ८:०६ योग: सौभाग्य करण: तैत्तिल योगा: काल च.रा: १५:१८ सु.उ: ५:३७ सु.अ: १८:३१	मंगलचौथी तिथि: चतुर्थी ८:४४ नक्षत्र: रोहिणी ६:२७ योग: शोभन करण: बालव योगा: मातंग च.रा: १७:३७ सु.उ: ५:३६ सु.अ: १८:३१	आद्यजादगुरु श्री शंकराचार्य जयन्ती तिथि: पंचमी ६:१८ नक्षत्र: आर्द्रा २७:१२ योग: अतिगंड करण: कौलव योगा: मुसल च.रा: मिथुन सु.उ: ५:३५ सु.अ: १८:३२	श्रीगंगोत्पती तिथि: सप्तमी १:४८ नक्षत्र: पुनर्वसु २५:४७ योग: सुध्य करण: गर योगा: सिद्धि च.रा: २०:७ सु.उ: ५:३४ सु.अ: १८:३२	अष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी ११:५६ नक्षत्र: ति २४:३७ योग: धृति करण: भद्रा योगा: उत्पात च.रा: कर्कट सु.उ: ५:३३ सु.अ: १८:३३	सीता जयन्ती तिथि: नवमी २२:१६ नक्षत्र: अश्लेषा २३:४५ योग: शूल करण: बालव योगा: मानस च.रा: २३:४५ सु.उ: ५:३२ सु.अ: १८:३३
दशमी तिथि: दशमी ९:०१ नक्षत्र: मघा २३:१७ योग: वृद्धि करण: तैत्तिल योगा: मुद्गर च.रा: सिंह सु.उ: ५:३१ सु.अ: १८:३३	मोहिनी एकादशी व्रत तिथि: एकादशी २०:१९ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी २३:१४ योग: ध्रुव करण: वव योगा: ध्वज च.रा: २९:१८ सु.उ: ५:३० सु.अ: १८:३४	द्वादशी तिथि: द्वादशी १९:५४ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी २३:४० योग: व्याघात करण: बणिज योगा: धाता च.रा: कन्या सु.उ: ५:२९ सु.अ: १८:३५	प्रदोष व्रत तिथि: त्रयोदशी २०:०५ नक्षत्र: हस्त २४:३६ योग: हर्षण करण: कौलव योगा: आनन्द च.रा: कन्या सु.उ: ५:२९ सु.अ: १८:३६	श्रीनृसिंह जयन्ती तिथि: चतुर्दशी २०:४७ नक्षत्र: चित्रा २६:०१ योग: वज्र करण: गर योगा: चर च.रा: १३:१५ सु.उ: ५:२८ सु.अ: १८:३६	चण्डी पूर्णिमा व्रत, बुद्ध जयन्ती तिथि: पूर्णिमा २१:५७ नक्षत्र: स्वाती २७:५४ योग: सिद्धि करण: भद्रा योगा: गद च.रा: तुला सु.उ: ५:२७ सु.अ: १८:३७	ज्ये.कृ.प्रा. शुद्ध तिथि: प्रतिपदा २३:३२ नक्षत्र: विशाखा अहोरात्र योग: व्यतिपात करण: बालव योगा: शुभ च.रा: २३:३४ सु.उ: ५:२६ सु.अ: १८:३७
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस तिथि: द्वितीया २५:२४ नक्षत्र: विशाखा ६:०९ योग: वरियन करण: तैत्तिल योगा: उत्पात च.रा: वृश्चिक सु.उ: ५:२५ सु.अ: १८:३८	तृतीया तिथि: तृतीया २७:२७ नक्षत्र: अनुराधा ८:४० योग: परिध करण: वव योगा: मानस च.रा: वृश्चिक सु.उ: ५:२४ सु.अ: १८:३८	मंगलचौथी व्रत तिथि: चतुर्थी अहोरात्र नक्षत्र: ज्येष्ठा ११:१७ योग: सिद्धि करण: बणिज योगा: मुद्गर च.रा: ११:१७ सु.उ: ५:२४ सु.अ: १८:३९	चतुर्थी तिथि: चतुर्थी ५:२८ नक्षत्र: मूल १३:५० योग: सिद्धि करण: कौलव योगा: ध्वज च.रा: धनु सु.उ: ५:२३ सु.अ: १८:३९	पंचमी तिथि: पंचमी ७:१९ नक्षत्र: पू.घा. १६:१० योग: साध्य करण: गर योगा: धाता च.रा: २२:४२ सु.उ: ५:२२ सु.अ: १८:४०	विश्व रेडक्रस दिवस तिथि: षष्ठी ८:५० नक्षत्र: उत्तराषाढा १८:०९ योग: शुभ करण: भद्रा योगा: आनन्द च.रा: मकर सु.उ: ५:२२ सु.अ: १८:४१	कानुन दिवस, अष्टमी व्रत तिथि: सप्तमी ९:५५ नक्षत्र: श्रवण १९:४२ योग: शुभ करण: बालव योगा: स्थिर च.रा: मकर सु.उ: ५:२१ सु.अ: १८:४१
अष्टमी तिथि: अष्टमी १०:३१ नक्षत्र: धनिष्ठा २०:४६ योग: ब्रह्म करण: तैत्तिल योगा: मातङ्ग च.रा: ८:१८ सु.उ: ५:२० सु.अ: १८:४२	नवमी तिथि: नवमी १०:३७ नक्षत्र: शतभिषा २१:१९ योग: ऐंद्र करण: वव योगा: अमृत च.रा: कुम्भ सु.उ: ५:२० सु.अ: १८:४२	दशमी तिथि: दशमी १०:१२ नक्षत्र: पू.भा. २१:२४ योग: वैधृति करण: बणिज योगा: काण च.रा: १५:२५ सु.उ: ५:१९ सु.अ: १८:४३	एकादशी तिथि: एकादशी ९:१९ नक्षत्र: उ.भा. २१:०२ योग: विष्कुभ करण: कौलव योगा: लुम्ब च.रा: मीन सु.उ: ५:१८ सु.अ: १८:४४	द्वादशी तिथि: द्वादशी ८:०० नक्षत्र: रेवती २०:१६ योग: प्रीति करण: गर योगा: मित्र च.रा: २०:१६ सु.उ: ५:१८ सु.अ: १८:४४	अन्नप्राशन मुहूर्तहरू: ७, १० र २१ गते गृहारम्भ मुहूर्त: २१ गते गृहप्रवेश: ३१ गते	अग्नी जुने दिन: १,३,६,८,११,१३,१५, १७,१९,२०,२२,२३,२५, २८ र ३० गते

सूचना : गौरीगंगा अस्पताल, पोखरा, काठमाडौं-०६१-५६६५६, ९८६६२२७६



ब्राह्मण समाज नेपाल


www.brahmansamajnepal.org



जेष्ठ २०८३

नेपाल संवत् १९८६

MAY/JUNE 2026

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
<p>दर्शश्राद्ध, निशी वार्ने</p> <p>तिथि: चतुर्दशी ११:४० नक्षत्र: रोहिणी २२:४७ योग: धृति करण: चतुष्पद योगा: धाता च.रा: वृष सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५५</p> <p>३१ 14</p>	<p>रुद्री जुने दिनहरः १ गते</p> <p>अन्नप्राशन मुहूर्तहरः ४, ७ र २२</p> <p>अग्नी जुने दिन: १ गते</p>	<p> श्री केदारेश्वर एवं सदाशिव ज्योतिष तथा वैदिक कर्मकाण्डसेवा केदारेश्वरमन्दिर हाम्रा सेवाहरः चिना टिपन बनाउने, कुण्डली-ग्रह दशाहर हेर्ने, विवाह व्रतवन्धादि जुराउनु परेमा, विभिन्न मुहूर्त साईत सम्बन्धि जानकारी लिनु परेमा, कुनै पनि धार्मिक कार्य पुराण सम्बन्धि कुनै पनि कार्यहरु गर्नु परेमा अवश्य सम्झनुहोला । कार्यालय श्री केदारेश्वरमन्दिर पोखरा-६, बैदाम, सम्पर्क नं: आश्रम समिति: ८८५६०००५३५, पोखरा-१४, चाउजे: पं-आचार्य वासुदेव सुवेदी, ८८४६०३५१६५, ८८०८४२७३२</p>			<p>ज्येष्ठ संक्रान्ति</p> <p>तिथि: त्रयोदशी ६:१५ नक्षत्र: अश्विनी १५:१० योग: आयुष्मान करण: भद्रा योगा: वज्र च.रा: मेष सु:उ: ५:१७ सु:अ: १८:४५</p> <p>१ 15</p>	<p>वटसावित्री व्रत, हलो बार्ने</p> <p>तिथि: औंसी २६:०७ नक्षत्र: भरणी १७:४८ योग: सौभाग्य करण: चतुष्पद योगा: ध्रुव च.रा: २३:२६ सु:उ: ५:१७ सु:अ: १८:४५</p> <p>२ शनि जयन्ती 16</p>
<p>अधिक ज्येष्ठ दशहरास्नान आरम्भ</p> <p>तिथि: प्रतिपदा १३:४४ सम्म नक्षत्र: कुतिका १६:१६ योग: शोभन करण: किस्तुघ्न योगा: धूम्र च.रा: वृष सु:उ: ५:१६ सु:अ: १८:४६</p> <p>३ अधिक मास पूजा 17</p>	<p>चन्द्र उदय</p> <p>तिथि: द्वितीया २१:१७ नक्षत्र: रोहिणी १४:३७ योग: सुकर्म करण: बालव योगा: प्रवर्धा च.रा: २५:४७ सु:उ: ५:१५ सु:अ: १८:४६</p> <p>४ 18</p>	<p>तिथि: तृतीया १८:४५ नक्षत्र: मृगशिरा १२:५७ योग: धृति करण: तैतिल योगा: रक्ष च.रा: मिथुन सु:उ: ५:१५ सु:अ: १८:४७</p> <p>५ 19</p>	<p>तिथि: चतुर्थी १६:२८ नक्षत्र: आर्द्रा १५:१४ योग: शूल करण: वव योगा: मुसल च.रा: २८:१४ सु:उ: ५:१५ सु:अ: १८:४७</p> <p>६ 20</p>	<p>तिथि: पंचमी १४:१६ नक्षत्र: पुनर्वसु ८:५३ योग: गंड करण: कौलव योगा: सिद्धि च.रा: कर्कट सु:उ: ५:१४ सु:अ: १८:४८</p> <p>७ 21</p>	<p>तिथि: षष्ठी १२:१८ नक्षत्र: तिष्य ८:३५ योग: वृद्धि करण: गर योगा: उत्पात च.रा: १२:५ सु:उ: ५:१४ सु:अ: १८:४५</p> <p>८ 22</p>	<p>तिथि: सप्तमी १०:३५ नक्षत्र: श्लेषा ७:४३ योग: ध्रुव करण: भद्रा योगा: मानस च.रा: ७:४६ सु:उ: ५:१३ सु:अ: १८:४५</p> <p>९ 23</p>
<p>अष्टमी व्रत</p> <p>तिथि: अष्टमी ८:२२ नक्षत्र: मघा ७:०८ योग: व्याघात करण: बालव योगा: मुद्गर च.रा: सिंह सु:उ: ५:१३ सु:अ: १८:५०</p> <p>१० जायशकाली पूजा 24</p>	<p>तिथि: नवमी ८:३१ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी ६:५५ योग: हर्षण करण: तैतिल योगा: ध्वज च.रा: १३:१ सु:उ: ५:३५ सु:अ: १८:३२</p> <p>११ 25</p>	<p>जंगादशहरा</p> <p>तिथि: दशमी ८:०५ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी ७:१८ योग: वरियन करण: वव योगा: धाता च.रा: कन्या सु:उ: ५:१२ सु:अ: १८:५१</p> <p>१२ 26</p>	<p>पदमीनी एकादशी व्रत</p> <p>तिथि: एकादशी ८:१७ नक्षत्र: हस्त ८:०७ योग: सिद्धि करण: बणिज योगा: आनन्द च.रा: २०:४३ सु:उ: ५:१२ सु:अ: १८:५१</p> <p>१३ 27</p>	<p>प्रदोष व्रत</p> <p>तिथि: द्वादशी ८:५५ नक्षत्र: चित्रा ८:२६ योग: वज्र करण: कौलव योगा: चर च.रा: तुला सु:उ: ५:११ सु:अ: १८:५२</p> <p>१४ 28</p>	<p>जाणतन्त्र दिवस</p> <p>तिथि: त्रयोदशी १०:०२ नक्षत्र: स्वाती ११:१३ योग: परिघ करण: गर योगा: गद च.रा: तुला सु:उ: ५:११ सु:अ: १८:५२</p> <p>१५ मंगलमाथा दिवस 29</p>	<p>पूर्णिमा व्रत</p> <p>तिथि: चतुर्दशी ११:३४ नक्षत्र: विशाखा १३:२३ योग: परिघ करण: भद्रा योगा: शुभ च.रा: ६:४५ सु:उ: ५:११ सु:अ: १८:५३</p> <p>१६ 30</p>
<p>विश्व धूम्रपान रहित दिवस</p> <p>तिथि: पूर्णिमा १३:२४ नक्षत्र: अनुराधा १५:४१ योग: शिव करण: बालव योगा: वृश्चिक च.रा: कुम्भ सु:उ: ५:११ सु:अ: १८:५३</p> <p>१७ 31</p>	<p>अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पूजा</p> <p>तिथि: प्रतिपदा १५:२५ नक्षत्र: ज्येष्ठा १८:२८ योग: सिद्धि करण: तैतिल योगा: पव च.रा: १८:२८ सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५४</p> <p>१८ 1</p>	<p>तिथि: द्वितीया १७:२५ नक्षत्र: मूल २१:०३ योग: साध्य करण: वव योगा: छत्र च.रा: धनु सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५४</p> <p>१९ 2</p>	<p>तिथि: तृतीया १६:१४ नक्षत्र: पूषा २३:२७ योग: शुभ करण: वव योगा: श्रीवत्स च.रा: धनु सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५५</p> <p>२० 3</p>	<p>ध्रुवाक्षुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस</p> <p>तिथि: चतुर्थी २०:४५ नक्षत्र: उत्तराषाढा २५:३१ योग: शुभ करण: बालव योगा: सौम्य च.रा: ६:०० सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५५</p> <p>२१ 4</p>	<p>विश्व वातावरण दिवस</p> <p>तिथि: पंचमी २१:५० नक्षत्र: श्रवण २७:१० योग: ब्रह्म करण: कौलव योगा: धूम्र च.रा: मकर सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५५</p> <p>२२ 5</p>	<p>तिथि: षष्ठी २२:२७ नक्षत्र: धनिष्ठा २८:२१ योग: ऐंद्र करण: गर योगा: प्रवर्द्ध च.रा: १५:४५ सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५६</p> <p>२३ 6</p>
<p>रवी सप्तमी व्रत</p> <p>तिथि: सप्तमी २२:३३ नक्षत्र: शतभिषा २५:०१ योग: वैधृति करण: भद्रा योगा: रक्ष च.रा: कुम्भ सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५६</p> <p>२४ 7</p>	<p>तिथि: अष्टमी २२:०८ नक्षत्र: पू.भा. योग: विष्कम्भ योग करण: बालव योगा: मुसल च.रा: २३:१२ सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५७</p> <p>२५ जायशकाली पूजा 8</p>	<p>तिथि: नवमी २१:१५ नक्षत्र: उ.भा. ५:१३ योग: आयुष्मान करण: तैतिल योगा: काण च.रा: मीन सु:उ: ५:०५ सु:अ: १८:५७</p> <p>२६ 9</p>	<p>तिथि: दशमी १५:५७ नक्षत्र: रेवती २८:१५ योग: सौभाग्य करण: वव योगा: उत्पात च.रा: २८:१५ सु:उ: ५:०५ सु:अ: १८:५८</p> <p>२७ 10</p>	<p>परमा एकादशी व्रत</p> <p>तिथि: एकादशी १८:१६ नक्षत्र: अश्विनी २७:१४ योग: शोभन करण: बणिज योगा: मानस च.रा: मेष सु:उ: ५:०५ सु:अ: १८:५८</p> <p>२८ 11</p>	<p>प्रदोष व्रत</p> <p>तिथि: द्वादशी १६:१६ नक्षत्र: भरणी २५:५६ योग: अतिगंड करण: कौलव योगा: मुद्गर च.रा: मेष सु:उ: ५:०५ सु:अ: १८:५८</p> <p>२९ 12</p>	<p>तिथि: त्रयोदशी १४:०३ नक्षत्र: कुतिका २४:२५ योग: सुकर्म करण: भद्रा योगा: ध्वज च.रा: ७:३४ सु:उ: ५:०५ सु:अ: १८:५८</p> <p>३० 13</p>



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



नेपाल संवत् १९८६

आषाढ २०८३


JUNE/JULY 2026

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
<p>रुद्री जुने दिनहरुः ५, ६, ७, ८, १२, १३, १४, १६, १७, २०, २१ २२, २४, २६, २७ र २८ गते</p>	<p>असार संक्रान्ति, अधिकमास समाप्ती तिथि: औंसी ८:१२ नक्षत्र: मृगशिरा २१:०७ योग: शूल करणा: किस्तुधन योगा: आनन्द च.रा: ८:५७ सु:उ: ५:१० सु:अ: १८:५५</p> <p>१ 15</p>	<p>शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रा. तिथि: प्रतिपदा ६:४३ सम्म नक्षत्र: आर्द्रा १६:२५ योग: गंड करणा: बालव योगा: चर च.रा: मिथुन सु:उ: ५:१० सु:अ: १६:००</p> <p>२ 16</p>	<p>कौशीकी उत्पती तिथि: तृतीया २६:०६ नक्षत्र: पुनर्वसु १७:५५ योग: ध्रुव करणा: तैत्तिल योगा: गद च.रा: १२:२१ सु:उ: ५:१० सु:अ: १६:००</p> <p>३ 17</p>	<p>तिथि: चतुर्थी २४:०७ नक्षत्र: ति १६:४२ योग: व्याघात करणा: वव योगा: शुभ च.रा: कर्कट सु:उ: ५:१० सु:अ: १६:००</p> <p>४ 18</p>	<p>तिथि: पंचमी २२:२५ नक्षत्र: श्लेषा १५:४१ योग: हर्षाण करणा: बालव योगा: मृत्यु च.रा: १५:४१ सु:उ: ५:१० सु:अ: १६:००</p> <p>५ 19</p>	<p>तिथि: षष्ठी २१:०६ नक्षत्र: मघा १५:०१ योग: वरियन करणा: कौलव योगा: पव च.रा: सिंह सु:उ: ५:१० सु:अ: १६:०१</p> <p>६ 20</p>
<p>विश्व योग दिवस तिथि: सप्तमी २०:१२ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी १४:४६ योग: सिद्ध करणा: गर योगा: छत्र च.रा: २०:४७ सु:उ: ५:१० सु:अ: १६:०१</p> <p>७ 21</p>	<p>अष्टमी व्रत, भूमीरज तिथि: अष्टमी १६:४७ नक्षत्र: उत्तराषाढा १४:५५ योग: व्याघात करणा: भद्रा योगा: छत्र च.रा: २०:४७ सु:उ: ५:१० सु:अ: १६:०१</p> <p>८ 22</p>	<p>तिथि: नवमी १६:५१ नक्षत्र: हस्त १५:४१ योग: वरियन करणा: बालव योगा: श्रीवत्स च.रा: कन्या सु:उ: ५:११ सु:अ: १६:०१</p> <p>९ 23</p>	<p>तिथि: दशमी २०:२७ नक्षत्र: चित्रा १६:५३ योग: परिघ करणा: तैत्तिल योगा: काल च.रा: तुला सु:उ: ५:११ सु:अ: १६:०१</p> <p>१० 24</p>	<p>तिर्जलाष्टकादशी व्रत तिथि: एकादशी २१:३१ नक्षत्र: स्वाती १८:३३ योग: शिव करणा: वव योगा: स्थिर च.रा: तुला सु:उ: ५:११ सु:अ: १६:०१</p> <p>११ 25</p>	<p>तिथि: द्वादशी २३:०० नक्षत्र: विशाखा २०:३५ योग: सिद्धि करणा: बणिज योगा: माताङ्ग च.रा: १४:५ सु:उ: ५:१२ सु:अ: १६:०१</p> <p>१२ 26</p>	<p>शनी प्रदोष व्रत तिथि: त्रयोदशी २४:४५ नक्षत्र: अनुराधा २३:०३ योग: साध्य करणा: कौलव योगा: अमृत च.रा: वृश्चिक सु:उ: ५:१२ सु:अ: १६:०२</p> <p>१३ 27</p>
<p>तिथि: चतुर्दशी २६:४८ नक्षत्र: ज्येष्ठा २५:३५ योग: शुभ करणा: गर योगा: काण च.रा: २५:३५ सु:उ: ५:१२ सु:अ: १६:०२</p> <p>१४ 28</p>	<p>पूर्णिमा व्रत, जैडू पूजा तिथि: पूर्णिमा २८:४७ नक्षत्र: मूल २८:१५ योग: शुभ करणा: भद्रा योगा: लुम्ब च.रा: धन सु:उ: ५:१२ सु:अ: १६:०२</p> <p>१५ 29</p>	<p>आषाढ कृष्ण पक्ष प्रा. तिथि: प्रतिपदा अहोरात्र नक्षत्र: पूषा अहोरात्र योग: ब्रह्म करणा: बालव योगा: मित्र च.रा: धनु सु:उ: ५:१३ सु:अ: १६:०२</p> <p>१६ 30</p>	<p>तिथि: प्रतिपदा ६:३७ नक्षत्र: पूषा ६:४२ योग: ऐंद्र करणा: तैत्तिल योगा: श्रीवत्स च.रा: १३:१६ सु:उ: ५:१३ सु:अ: १६:०२</p> <p>१७ 1</p>	<p>तिथि: द्वितीया ८:०८ नक्षत्र: ज.षा. ८:४२ योग: वैधृति करणा: वव योगा: धर्वाक्ष च.रा: मकर सु:उ: ५:१३ सु:अ: १६:०२</p> <p>१८ 2</p>	<p>तिथि: तृतीया ९:५५ नक्षत्र: श्रवणा १०:३७ योग: विष्कम्भ करणा: बणिज योगा: ध्रुव च.रा: २३:१६ सु:उ: ५:१४ सु:अ: १६:०२</p> <p>१९ 3</p>	<p>तिथि: चतुर्थी ९:५३ नक्षत्र: धनिष्ठा ११:५४ योग: प्रीति करणा: कौलव योगा: प्रवर्द्ध च.रा: कुम्भ सु:उ: ५:१४ सु:अ: १६:०२</p> <p>२० 4</p>
<p>तिथि: पञ्चमी १०:१ नक्षत्र: शतभिषा १२:४२ योग: आयुष्मान करणा: गर योगा: रक्ष च.रा: कुम्भ सु:उ: ५:१५ सु:अ: १६:०२</p> <p>२१ 5</p>	<p>तिथि: षष्ठी ९:३५ नक्षत्र: पू.भा. १३:०० योग: सौभाग्य करणा: भद्रा योगा: मुसल च.रा: ६:५८ सु:उ: ५:१५ सु:अ: १६:०१</p> <p>२२ 6</p>	<p>अष्टमी व्रत तिथि: सप्तमी ८:४७ नक्षत्र: पू.भा. उत्तराफाल्गुनी १२:४५ योग: शोभन करणा: बालव योगा: सिद्धि च.रा: मीन सु:उ: ५:१५ सु:अ: १६:०१</p> <p>२३ 7</p>	<p>तिथि: अष्टमी ७:३० नक्षत्र: रेवती १२:१४ योग: अतिगंड करणा: तैत्तिल योगा: उत्पात च.रा: १२:१४ सु:उ: ५:१६ सु:अ: १६:०१</p> <p>२४ 8</p>	<p>तिथि: नवमी ५:५० नक्षत्र: अश्लेषा ११:१७ योग: सुकर्म करणा: मानव योगा: मावस च.रा: मेष सु:उ: ५:१६ सु:अ: १६:०१</p> <p>२५ 9</p>	<p>स्मार्तानाम चोर्जीनी एकादशी व्रत तिथि: एकादशी २५:३५ नक्षत्र: भरणी १०:०२ योग: शूल करणा: बणिज योगा: मुद्गर च.रा: १५:४१ सु:उ: ५:१७ सु:अ: १६:०१</p> <p>२६ 10</p>	<p>वैष्णवानां चोर्जीनी एकादशी व्रत तिथि: द्वादशी २३:१७ नक्षत्र: कृत्तिका ८:३४ योग: गंड करणा: कौलव योगा: ध्वज च.रा: वृष सु:उ: ५:१७ सु:अ: १६:०१</p> <p>२७ 11</p>
<p>प्रदोष व्रत तिथि: त्रयोदशी २०:४८ नक्षत्र: रोहिणी ६:५७ योग: वृद्धि करणा: गर योगा: धाता च.रा: १८:७ सु:उ: ५:१७ सु:अ: १६:००</p> <p>२८ 12</p>	<p>आजु जयन्ती तिथि: चतुर्दशी १८:२० नक्षत्र: आर्द्रा २७:३८ योग: ध्रुव करणा: भद्रा योगा: काल च.रा: मिथुन सु:उ: ५:१८ सु:अ: १६:००</p> <p>२९ 13</p>	<p>दर्श श्राद्ध तिथि: औंसी १५:५६ नक्षत्र: पुनर्वसु २६:०६ योग: व्याघात करणा: किस्तुधन योगा: स्थिर च.रा: २०:२८ सु:उ: ५:१८ सु:अ: १६:००</p> <p>३० 14</p>	<p>आषाढ शुक्ल प्रारम्भ तिथि: प्रतिपदा १३:४१ नक्षत्र: ति २४:४५ योग: हर्षाण करणा: बालव योगा: मातङ्ग च.रा: कर्कट सु:उ: ५:१८ सु:अ: १६:००</p> <p>३१ 15</p>	<p>तिथि: द्वितीया ११:४० नक्षत्र: श्लेषा २३:४० योग: वरियन करणा: तैत्तिल योगा: अमृत च.रा: २३:४० सु:उ: ५:१८ सु:अ: १८:५५</p> <p>३२ 16</p>	<p>अन्नप्राशन मुहूर्तहरुः ३, १०, १७ र १८ गते व्रतवन्ध मुहूर्तः १० गते विवाह मुहूर्तहरुः ६, १३, १४, १५, १७, १८ र २३ गते । दोकान खोल्ने दिनः १०, १३ र १८ गते</p>	<p>अग्नी जुने दिनः ३, ५, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४ र २७ गते</p>



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



नेपाल संवत् १९८६

श्रावण २०८३

JULY/AUG. 2026

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
तिथि: चतुर्थी १८:५५ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी ६:२४ योग: सिद्धि करण: वव योगा: मित्र च.रा: कन्या सु:उ: ५:३५ सु:अ: १८:३५	रुद्री जुने दिनहरः २५ गते अन्नप्राशन मुहूर्तहरः ४, ८, १५, १८ र २० गते अग्नी जुने दिनः २८ र ३० गते	बारबेला अनुसार राहुकाल समय आइतबार: दिउँसो ४:३० देखि ६:०० बजेसम्म सोमबार: बिहान ७:३० देखि ९:०० बजेसम्म मंगलबार: दिउँसो ३:०० देखि ४:३० सम्म बुधबार: दिउँसो १२:०० देखि १:३० सम्म बिहिबार: दिउँसो १:३० देखि ३:०० सम्म शुक्रबार: बिहान १०:३० देखि १२:०० सम्म शनिबार: बिहान ९:०० देखि १०:३० सम्म	कालराहु दिग्गान आइतबार: उत्तर सोमबार: वायव्य मंगलबार: पश्चिम बुधबार: नैऋत्य विहिबार: दक्षिण शुक्रबार: आग्नेय शनिबार: पूर्वमा यात्रामा सम्मुख वा दाहिने राहु नपार्नु	साउन संक्रान्ति, लुतो फाल्गे तिथि: तृतीया ५:५७ नक्षत्र: मघा २२:५५ योग: सिद्धि करण: वव योगा: काण च.रा: सिंह सु:उ: ५:२० सु:अ: १८:५५	तिथि: चतुर्थी ८:३५ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी २२:३४ योग: वरियन करण: बणिज योगा: लुम्ब च.रा: २८:३३ सु:उ: ५:२० सु:अ: १८:५५	
तिथि: पंचमी ७:४० नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी २२:४० योग: परिघ करण: कौलव योगा: मित्र च.रा: कन्या सु:उ: ५:२९ सु:अ: १८:५८	तिथि: षष्ठी ७:१२ नक्षत्र: हस्त २३:१६ योग: शिव करण: गर योगा: वज्र च.रा: कन्या सु:उ: ५:२९ सु:अ: १८:५८	तिथि: सप्तमी ७:१५ नक्षत्र: चित्रा २४:२९ योग: सिद्धि करण: भद्रा योगा: ध्वंक्ष च.रा: ११:४४ सु:उ: ५:२२ सु:अ: १८:५७	बुधाष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी ७:४८ नक्षत्र: स्वाती २५:५५ योग: साध्य करण: बालव योगा: धूम्र च.रा: तुला सु:उ: ५:२२ सु:अ: १८:५७	तिथि: नवमी ८:५० नक्षत्र: विशाखा २७:५५ योग: शुभ करण: तैत्तिल योगा: प्रवृद्ध च.रा: २१:२३ सु:उ: ५:२३ सु:अ: १८:५६	तिथि: दशमी १०:१८ नक्षत्र: अनुराधा अहोरात्र योग: शुभ करण: वव योगा: रक्ष च.रा: वृश्चिक सु:उ: ५:२३ सु:अ: १८:५६	हरिशयनी एकादशी व्रत तिथि: एकादशी १२:०५ नक्षत्र: अनुराधा ६:१६ योग: ब्रह्म करण: बणिज योगा: अमृत च.रा: वृश्चिक सु:उ: ५:२४ सु:अ: १८:५५
प्रदोष व्रत तिथि: द्वादशी १४:०४ नक्षत्र: ज्येष्ठा ८:५० योग: ऐंद्रा करण: कौलव योगा: काण च.रा: ८:५० सु:उ: ५:२४ सु:अ: १८:५५	व्यास जयन्ती तिथि: त्रयोदशी १६:०५ नक्षत्र: मूल ११:२७ योग: वैधति करण: गर योगा: लुम्ब च.रा: धनु सु:उ: ५:२५ सु:अ: १८:५४	तिथि: चतुर्दशी १७:५६ नक्षत्र: पू.षा. १३:५७ योग: विक्रम करण: भद्रा योगा: मित्र च.रा: २०:३२ सु:उ: ५:२५ सु:अ: १८:५४	गुरुपूर्णिमा व्रत तिथि: पूर्णिमा १९:२५ नक्षत्र: ज.षा. १६:१९ योग: प्रीति करण: भद्रा योगा: वज्र च.रा: मकर सु:उ: ५:२६ सु:अ: १८:५३	श्रावण कृष्ण प्रारम्भ तिथि: प्रतिपदा २०:३५ नक्षत्र: श्रवण १८:०२ योग: आयुष्मान करण: बालव योगा: ध्वज च.रा: मकर सु:उ: ५:२६ सु:अ: १८:५३	रिवर खाने दिन तिथि: द्वितीया २१:३० नक्षत्र: धनिष्ठा १९:२६ योग: सौभाग्य करण: तैत्तिल योगा: धाता च.रा: ६:४८ सु:उ: ५:२७ सु:अ: १८:५२	तिथि: तृतीया २१:३९ नक्षत्र: शतभिषा २०:२९ योग: शोभन करण: वव योगा: आनन्द च.रा: कुम्भ सु:उ: ५:२७ सु:अ: १८:५१
मित्रता दिवस तिथि: चतुर्थी २१:१९ नक्षत्र: पू.भा. २०:४५ योग: अतिगड करण: बणिज योगा: चर च.रा: १४:४२ सु:उ: ५:२८ सु:अ: १८:५९	तिथि: पंचमी २०:२३ नक्षत्र: ज.भा. २०:४९ योग: सुकर्म करण: कौलव योगा: चर च.रा: मीन सु:उ: ५:२८ सु:अ: १८:५०	तिथि: षष्ठी १९:०८ नक्षत्र: रेवती २०:१९ योग: धृति करण: गर योगा: शुभ च.रा: २०:१९ सु:उ: ५:२५ सु:अ: १८:४५	अष्टमी व्रत तिथि: सप्तमी १७:३९ नक्षत्र: आश्विनी १९:१५ योग: शूल करण: भद्रा योगा: मृत्यु च.रा: मेष सु:उ: ५:२५ सु:अ: १८:४८	तिथि: अष्टमी १५:३४ नक्षत्र: भरणी १८:०८ योग: गड करण: तैत्तिल योगा: पद्म च.रा: २३:४७ सु:उ: ५:३० सु:अ: १८:४८	तिथि: नवमी १३:२३ नक्षत्र: कृत्तिका १६:४२ योग: वृद्धि करण: वव योगा: छत्र च.रा: वृष सु:उ: ५:३० सु:अ: १८:४७	तिथि: दशमी ११:०९ नक्षत्र: रोहिणी १५:०७ योग: ध्रुव करण: बणिज योगा: श्रौत्स च.रा: २६:१८ सु:उ: ५:३१ सु:अ: १८:४६
कात्मीका एकादशी व्रत तिथि: एकादशी ८:३४ नक्षत्र: मृगशिरा १३:२७ योग: हस्त करण: कौलव योगा: सौम्य च.रा: मिथुन सु:उ: ५:३९ सु:अ: १८:४५	सोम प्रदोष व्रत तिथि: द्वादशी ६:६ नक्षत्र: आर्द्रा ११:४८ योग: वज्र करण: गर योगा: काल च.रा: २८:३६ सु:उ: ५:३२ सु:अ: १८:४५	घण्टाकर्ण चतुर्दशी तिथि: चतुर्दशी २५:२८ नक्षत्र: पुनर्वसु १०:१४ योग: सिद्धि करण: भद्रा योगा: स्थिर च.रा: कर्कट सु:उ: ५:३३ सु:अ: १८:४४	दर्श श्राद्ध, हलो बार्ने तिथि: औंसी २३:२६ नक्षत्र: तिष्य ८:५० योग: व्यतिपात करण: चतुष्पद योगा: मातङ्ग च.रा: कर्कट सु:उ: ५:३३ सु:अ: १८:४६	श्रावण शुक्ल प्रारम्भ तिथि: प्रतिपदा २१:४२ नक्षत्र: श्लेषा ७:४९ योग: वरियन करण: किस्तुध्न योगा: अमृत च.रा: ७:४९ सु:उ: ५:३४ सु:अ: १८:४३	तिथि: द्वितीया २०:२० नक्षत्र: मघा ६:५९ योग: परिघ करण: बालव योगा: काण च.रा: सिंह सु:उ: ५:३४ सु:अ: १८:४९	तिथि: तृतीया १९:२४ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी ६:२४ योग: शिव करण: तैत्तिल योगा: लुम्ब च.रा: २८:२९ सु:उ: ५:३५ सु:अ: १८:४०



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



कास्की जिल्ला कार्यसमिति		
अध्यक्ष	श्री रामप्रसाद बस्ताकोटी	९८५६०३५६५५
उपाध्यक्ष	श्री विष्णु सुवेदी	९८४६०४८५५७
सचिव	श्री सूर्यमोहन आचार्य	९८४६०२५८४७
कोषाध्यक्ष	श्री बन्धुराज पराजुली	९८४६०३९६४४
सह-सचिव	श्री रामकुमारी पौडेल	९८४६०२४९४
सदस्य	श्री रूपायाम नारायण पौडेल	९८५६०५६४५५
सदस्य	श्री पुष्पराज भण्डारी	९८४६०५८०८०
सदस्य	श्री हरिप्रसाद पौडेल	९८५६०९३६८०
सदस्य	श्री जगन्नाथ कोइराला	९८४६९६५२९३
सदस्य	श्री बोधराज बराल	९८५६०२७९२६
सदस्य	श्री खडानन्द लामिछाने	९८४६३८४६८७
सदस्य	श्री मिना पराजुली	९८४६५३९५७८
सदस्य	श्री राधादेवी बराल	९८४६२९३४२४
सदस्य	श्री कृष्णमोहन भ राई	९८४६३२६८८९
सदस्य	श्री शिवलाल पौडेल	९८४६०५७५९८
सदस्य	श्री युवराज बस्ताकोटी	९८४६०३६४३६
सदस्य	श्री शुभद्रा कोइराला	९८४६२२४६४२
सदस्य	श्री प्रभा पौडेल	९८५६०६९२२३
सदस्य	श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल	९८५६०२२३९७
सदस्य	श्री रामा पौडेल	९८४६६२३९९९
सदस्य	श्री बामदेव बस्ताकोटी	९८५६०२९६२५
सदस्य	श्री मातृकाराज घिमिरे	९८५६०४७०७७
सदस्य	श्री भरतराज अधिकारी	९८६९६८६२४९
सदस्य	श्री नेत्रपाणि बराल	९८५६०३७७५९

नेपाल संवत् १९४६

भाद्र २०८३

AUG./SEP. 2026

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
<p>रुद्री जुने दिनहरू: १, २, ३, ५, ८, ९, १०, ११, १३, १६, १७, १९, २२, २३, २४, २८ र ३१ गते</p>	<p>नागा पञ्चमी तिथि: पंचमी १८:५७ नक्षत्र: हस्त ६:५२ योग: साध्य करण: बणिज योगा: वज्र च.रा: १५:१७ सु.उ: ५:३६ सु.अ: १८:३८</p>	<p>कल्की जयन्ती तिथि: षष्ठी १५:३० नक्षत्र: चित्रा ७:५० योग: शुभ करण: कौलव योगा: ध्वंक्ष च.रा: तुला सु.उ: ५:३६ सु.अ: १८:३७</p>	<p>राष्ट्रिय सूचना दिवस तिथि: सप्तमी २०:३१ नक्षत्र: स्वाती ९:१८ योग: शुभ करण: गर योगा: धूम्र च.रा: २८:४२ सु.उ: ५:३७ सु.अ: १८:३६</p>	<p>अष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी २१:५५ नक्षत्र: विशाखा ११:१३ योग: ब्रह्म करण: भद्रा योगा: प्रवर्द्ध च.रा: वृश्चिक सु.उ: ५:३७ सु.अ: १८:३६</p>	<p>तिथि: नवमी २३:४७ नक्षत्र: अनुराधा १३:२५ योग: ऐंद्र करण: बालव योगा: रक्ष च.रा: वृश्चिक सु.उ: ५:३७ सु.अ: १८:३५</p>	<p>तिथि: दशमी २५:४७ नक्षत्र: ज्येष्ठा १६:०१ योग: वैधृति करण: तैत्तिल योगा: सुसल च.रा: १६:९ सु.उ: ५:३८ सु.अ: १८:३४</p>
<p>पुत्रदा एकादशी तिथि: एकादशी २७:४५ नक्षत्र: मूल १८:३८ योग: विष्कुभ करण: वव योगा: सिद्धि च.रा: धनु सु.उ: ५:३८ सु.अ: १८:३३</p>	<p>तिथि: द्वादशी समस्त नक्षत्र: पु.षा २१:११ योग: प्रीति करण: बणिज योगा: उतपात च.रा: २७:४७ सु.उ: ५:३५ सु.अ: १८:३२</p>	<p>गौम प्रदोष व्रत तिथि: द्वादशी ५:४६ नक्षत्र: उ.भा. २३:२५ योग: आयुष्मान करण: कौलव योगा: मानस च.रा: मकर सु.उ: ५:२५ सु.अ: १८:३१</p>	<p>तिथि: त्रयोदशी ७:१५ नक्षत्र: श्रवण २५:२६ योग: सौभाग्य करण: गर योगा: मुद्गर च.रा: मकर सु.उ: ५:४० सु.अ: १८:३५</p>	<p>पूर्णिमा व्रत तिथि: चतुर्दशी ८:३१ नक्षत्र: धनिष्ठा २६:५७ योग: शोभन करण: भद्रा योगा: श्रीवत्स च.रा: १४:१५ सु.उ: ५:४० सु.अ: १८:२८</p>	<p>जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन तिथि: पूर्णिमा ९:६ नक्षत्र: शतभिषा २७:५७ योग: अतिगंड करण: बालव योगा: सौम्य च.रा: कुम्भ सु.उ: ५:४१ सु.अ: १८:२७</p>	<p>गाईजात्रा, भाद्र कृष्ण पक्ष प्रा. तिथि: प्रतिपदा ९:३० नक्षत्र: पु.भा. २८:२५ योग: सुकर्म करण: तैत्तिल योगा: काल च.रा: २२:२४ सु.उ: ५:४१ सु.अ: १८:२६</p>
<p>तिथि: द्वितीया ९:१३ नक्षत्र: उ.भा. २८:३२ योग: धृति करण: वव योगा: स्थिर च.रा: मीन सु.उ: ५:४२ सु.अ: १८:२५</p>	<p>तिथि: तृतीया ८:२८ नक्षत्र: रेवती २८:०७ योग: गंड करण: बणिज योगा: मातङ्ग च.रा: २८:७ सु.उ: ५:४२ सु.अ: १८:२४</p>	<p>मंगलचौथी व्रत तिथि: चतुर्थी ७:१६ नक्षत्र: अश्विनी २७:२० योग: वृद्धि करण: कौलव योगा: अमृत च.रा: मेष सु.उ: ५:४३ सु.अ: १८:२३</p>	<p>तिथि: षष्ठी २७:४६ नक्षत्र: भरणी २६:१३ योग: ध्रुव करण: गर योगा: काण च.रा: मेष सु.उ: ५:४६ सु.अ: १८:२२</p>	<p>जौरा सप्तमी तिथि: सप्तमी २५:३७ नक्षत्र: कृत्तिका २४:५० योग: व्यातिपात करण: भद्रा योगा: लुम्ब च.रा: ७:५३ सु.उ: ५:४४ सु.अ: १८:२१</p>	<p>श्रीकृष्णजन्माष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी २३:१७ नक्षत्र: रोहिणी २३:१७ योग: हर्षण करण: बालव योगा: मित्र च.रा: वृष सु.उ: ५:४४ सु.अ: १८:२०</p>	<p>श्रीकृष्ण रथयात्रा तिथि: नवमी २०:५१ नक्षत्र: मृगशिरा २१:३८ योग: वरियन करण: तैत्तिल योगा: वज्र च.रा: १०:२८ सु.उ: ५:४५ सु.अ: १८:१९</p>
<p>तिथि: दशमी १८:२५ नक्षत्र: आर्द्रा १५:५७ योग: सिद्ध करण: वव योगा: ध्वंक्ष च.रा: मिथुन सु.उ: ५:४५ सु.अ: १८:१७</p>	<p>अजा एकादशी व्रत तिथि: एकादशी १६:०२ नक्षत्र: पुनर्वसु १८:२२ योग: व्याघात करण: कौलव योगा: धूम्र च.रा: १२:४५ सु.उ: ५:४५ सु.अ: १८:१६</p>	<p>शिक्षा दिवस तिथि: द्वादशी १३:४८ नक्षत्र: ति १६:५५ योग: परिघ करण: गर योगा: प्रवर्द्ध च.रा: कर्कट सु.उ: ५:४६ सु.अ: १८:१५</p>	<p>तिथि: त्रयोदशी ११:४७ नक्षत्र: श्लेषा १५:४२ योग: शिव करण: भद्रा योगा: रक्ष च.रा: १५:४२ सु.उ: ५:४६ सु.अ: १८:१४</p>	<p>दर्श श्राद्ध तिथि: चतुर्दशी १०:०४ नक्षत्र: मघा १४:४८ योग: सिद्धि करण: चतुष्पद योगा: सुसल च.रा: सिंह सु.उ: ५:४७ सु.अ: १८:१३</p>	<p>कुरो औंसी, बुवाको मुख हेर्ने तिथि: औंसी ८:४३ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी १४:१५ योग: साध्य करण: किस्तुध्न योगा: सिद्धि च.रा: २०:११ सु.उ: ५:४७ सु.अ: १८:१२</p>	<p>तिथि: प्रतिपदा ७:४७ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी १४:०८ योग: शुभ करण: बालव योगा: उत्पात च.रा: कन्या सु.उ: ५:४८ सु.अ: १८:११</p>
<p>तीजको दर खाने तिथि: द्वितीया ७:१५ नक्षत्र: हस्त १४:३० योग: शुभ करण: तैत्तिल योगा: मानस च.रा: २६:५२ सु.उ: ५:४८ सु.अ: १८:०५</p>	<p>हरितालिका, बालदिवस तिथि: तृतीया ७:२१ नक्षत्र: चित्रा १५:२१ योग: ब्रह्म करण: वव योगा: मुद्गर च.रा: तुला सु.उ: ५:४५ सु.अ: १८:०८</p>	<p>मंगलचौथी व्रत, ऋषिपंचमी व्रत तिथि: चतुर्थी ७:५४ नक्षत्र: स्वाती १६:४२ योग: ऐंद्र करण: बणिज योगा: ध्वज च.रा: तुला सु.उ: ५:४५ सु.अ: १८:०७</p>	<p>तिथि: पंचमी ८:५७ नक्षत्र: विशाखा १८:३१ योग: वैधृति करण: कौलव योगा: धाता च.रा: १२:२ सु.उ: ५:५ सु.अ: १८:०६</p>	<p>चत्वारः वेदाः वेदाः उपवेदाः १. ऋग्वेदः आयुर्वेदः २. यजुर्वेदः धनुर्वेदः ३. सामवेदः गान्धर्ववेदः ४. अथर्ववेदः शिल्पवेदः</p>	<p>दोकान खोल्ने दिनहरू: १, ४, १४, १५, २८, २९ धान्य छेदन: २८ गते अन्नप्राशन: १, ३, १० र २५ गते</p>	<p>अग्नी जुने दिन: १, ३, ५, ८, ९, ११, १३ १४, १६, १८, २० २१, २३, २५, २८ र ३० गते</p>

सुदामा : गौर्खाली अफेक्ट प्रिन्ट, काठमाडौं, नेपाल, काठमाडौं-०६१-५३३५६६, ९८५६०२०७६



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



आश्विन २०८३

नेपाल संवत् १९८६

SEP./OCT 2026

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
<p>रुद्री जुने दिनहरू: १, २, ४, ७, ८ र ९ गते</p> <p>अन्नप्राशन: ५ र २६ धान्य छेदन: २ र ५ दोकान खोल्ने: १ र ५ गते</p>	<p>अग्नी जुने दिन: १,३,४,६,८,१० र २५ गते</p>	<p>मद्रवास फल मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक - स्वर्ग, फल सौख्यम् कर्कट, सिंह, कुम्भ, मिन - मृत्युलोक, फल कार्यानाश कन्या, तुला, धनु मकर - पाताल, धनागम् जुनै काम गर्दा पनि त्यस दिनको राशि विचार गर्नुपर्छ ।</p>		<p>आश्विन संक्रान्ति तिथि: षष्ठी १०:२६ नक्षत्र: अनुराधा २०:४६ योग: विष्कम्भ करण: गर योग: आनन्द च.रा: वृश्चिक सु:उ: ५:५० सु:अ: १८:०५</p>	<p>महालक्ष्मी व्रतारम्भ तिथि: सप्तमी १२:१५ नक्षत्र: ज्येष्ठा २३:१२ योग: प्रीति करण: भद्रा योग: चर च.रा: २३:१२ सु:उ: ५:५० सु:अ: १८:०४</p>	<p>संविधान दिवस तिथि: अष्टमी १४:१७ नक्षत्र: मूल २५:४५ योग: आयुष्मान करण: बालव योग: गद च.रा: धनु सु:उ: ५:५१ सु:अ: १८:०२</p>
<p>तिथि: नवमी १६:२२ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी २८:२४ योग: सौभाग्य करण: तैत्तिल योग: शुभ च.रा: धनु सु:उ: ५:५१ सु:अ: १८:०१</p>	<p>तिथि: दशमी १८:१८ अहोरात्र नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी समस्त योग: शोभन करण: वव योग: मृत्यु च.रा: ११:१ सु:उ: ५:५२ सु:अ: १८:००</p>	<p>हरिपरिवर्तिनी एकादशी व्रत तिथि: एकादशी १९:४७ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी ६:४६ योग: अतिगंड करण: वव योग: पंच च.रा: मकर सु:उ: ५:५२ सु:अ: १७:५९</p>	<p>वामन द्वादशी तिथि: द्वादशी २१:१२ नक्षत्र: श्रवण ८:४८ योग: सुकर्म करण: बणिज योग: छत्र च.रा: २१:४० सु:उ: ५:५३ सु:अ: १७:५८</p>	<p>प्रदोष व्रत तिथि: त्रयोदशी २१:५५ नक्षत्र: धनिष्ठा १०:२६ योग: धृति करण: कौलव योग: श्रीवत्स च.रा: कुम्भ सु:उ: ५:५३ सु:अ: १७:५७</p>	<p>अनन्त चतुर्दशी व्रत तिथि: चतुर्दशी २२:१६ नक्षत्र: शतभिषा ११:३४ योग: शूल करण: गर योग: सौम्य च.रा: कुम्भ सु:उ: ५:५४ सु:अ: १७:५५</p>	<p>पूर्णिमा व्रत तिथि: पूर्णिमा २२:०२ नक्षत्र: पू.भा. १२:१२ योग: गंड करण: भद्रा योग: काल च.रा: ६:५ सु:उ: ५:५४ सु:अ: १७:५४</p>
<p>प्रतिपदा श्राद्ध तिथि: प्रतिपदा २१:१५ नक्षत्र: उ.भा. १२:२१ योग: वृद्धि करण: बालव योग: स्थिर च.रा: मीन सु:उ: ५:५५ सु:अ: १७:५६</p>	<p>द्वितीया श्राद्ध तिथि: द्वितीया २०:०५ नक्षत्र: रेवती १२:०२ योग: ध्रुव करण: तैत्तिल योग: मातङ्ग च.रा: १२:२ सु:उ: ५:५५ सु:अ: १७:५२</p>	<p>तृतीया श्राद्ध तिथि: तृतीया १८:३६ नक्षत्र: अश्विनी ११:२० योग: व्याघात करण: वव योग: अमृत च.रा: मेष सु:उ: ५:५६ सु:अ: १७:५१</p>	<p>चतुर्थी श्राद्ध तिथि: चतुर्थी १६:४४ नक्षत्र: भरणी १०:१७ योग: हर्षण करण: कौलव योग: काण च.रा: १५:५८ सु:उ: ५:५६ सु:अ: १७:५०</p>	<p>पंचमी/षष्ठी श्राद्ध तिथि: पंचमी १४:३६ नक्षत्र: कृत्तिका ८:५७ योग: सिद्धि करण: गर योग: लुम्ब च.रा: वृष सु:उ: ५:५७ सु:अ: १७:४८</p>	<p>सप्तमी श्राद्ध तिथि: षष्ठी १२:१८ नक्षत्र: रोहिणी ७:२६ योग: व्यतिपात करण: भद्रा योग: मित्र च.रा: १८:३८ सु:उ: ५:५७ सु:अ: १७:४७</p>	<p>अष्टमी श्राद्ध तिथि: सप्तमी ९:५४ नक्षत्र: आर्द्रा २८:०७ योग: वज्र करण: बालव योग: मुद्गर च.रा: मिथुन सु:उ: ५:५८ सु:अ: १७:४६</p>
<p>नवमी श्राद्ध, मातृ नवमी तिथि: अष्टमी, नवमी ७:२५ नक्षत्र: पुनर्वसु २६:३० योग: परिध करण: तैत्तिल योग: ध्वज च.रा: २०:५४ सु:उ: ५:५८ सु:अ: १७:४५</p>	<p>दशमी श्राद्ध तिथि: दशमी २६:५६ नक्षत्र: ति २५:०१ योग: शिद्ध करण: वव योग: धाता च.रा: कर्कट सु:उ: ५:५४ सु:अ: १७:४४</p>	<p>ईन्दिरा एकादशी व्रत तिथि: एकादशी २४:५७ नक्षत्र: श्लेषा २३:४५ योग: सिद्धि करण: बणिज योग: आनन्द च.रा: २३:४५ सु:उ: ५:५५ सु:अ: १७:४३</p>	<p>द्वादशी श्राद्ध, मघा श्राद्ध तिथि: द्वादशी २३:१५ नक्षत्र: मघा २२:४६ योग: साध्य करण: कौलव योग: शीवत्स च.रा: सिंह सु:उ: ६:०० सु:अ: १७:४२</p>	<p>त्रयोदशी श्राद्ध तिथि: त्रयोदशी २१:५५ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी २२:०८ योग: शुभ करण: गर योग: गद च.रा: २८:२ सु:उ: ६:०० सु:अ: १७:४१</p>	<p>चतुर्दशी श्राद्ध (शस्त्राधिनिधन) तिथि: चतुर्दशी २१:०१ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी २१:५५ योग: ब्रह्म करण: भद्रा योग: शुभ च.रा: कन्या सु:उ: ६:०१ सु:अ: १७:४०</p>	<p>औंसी श्राद्ध तिथि: औंसी २०:३५ नक्षत्र: हस्त २२:१० योग: ऐंद्र करण: चतुष्पद योग: शूभ च.रा: कन्या सु:उ: ६:०१ सु:अ: १७:३९</p>
<p>घटस्थापना, दुर्गा पक्ष तिथि: प्रतिपदा २०:३५ नक्षत्र: चित्रा २२:५४ योग: वैधृति करण: किस्तुधन योग: पंच च.रा: १०:२८ सु:उ: ६:०२ सु:अ: १७:३७</p>	<p>द्वितीया श्राद्ध तिथि: द्वितीया २१:१५ नक्षत्र: स्वाती २४:०८ योग: विष्कम्भ करण: बालव योग: छत्र च.रा: तुला सु:उ: ६:०२ सु:अ: १७:३७</p>	<p>तृतीया श्राद्ध तिथि: तृतीया २२:२० नक्षत्र: विशाखा २५:५१ योग: प्रीति करण: तैत्तिल योग: श्रीवत्स च.रा: १५:२३ सु:उ: ६:०३ सु:अ: १७:३५</p>	<p>चतुर्थी श्राद्ध तिथि: चतुर्थी २३:५१ नक्षत्र: अनुराधा २७:५८ योग: आयुष्मान करण: वव योग: सौम्य च.रा: वृश्चिक सु:उ: ६:०४ सु:अ: १७:३४</p>	<p>पंचमी श्राद्ध तिथि: पंचमी २५:४३ नक्षत्र: ज्येष्ठा समस्त योग: सौभाग्य करण: बणिज योग: काल च.रा: वृश्चिक सु:उ: ६:०४ सु:अ: १७:३३</p>	<p>षष्ठी श्राद्ध तिथि: षष्ठी २७:४७ नक्षत्र: ज्येष्ठा ६:२४ योग: शोभन करण: कौलव योग: चर च.रा: ६:२४ सु:उ: ६:०५ सु:अ: १७:३२</p>	<p>फूलपाती तिथि: सप्तमी २५:५४ नक्षत्र: मूल ९:०० योग: अतिगंड करण: गर योग: गद च.रा: धनु सु:उ: ६:०५ सु:अ: १७:३२</p>



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्थापन समिति

संयोजक	श्री महेश पराजुली	९८५६०२९७५५	सचिव	श्री पृथ्वी पौडेल	९८५६०२५८९३	सदस्य	श्री माधव बराल	९८५६०२२२७६
सह-संयोजक	श्री भेषराज लम्साल	९८५६०६९३८३	कोषाध्यक्ष	श्री रामप्रसाद बस्ताकोटी	९८५६०३५६५५	सदस्य	श्री जीवन आचार्य गोर्खाली	९८५६०२२०५६

कार्तिक २०८३

OCT./NOV. 2026

नेपाल संवत् १९८६-८७

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
कालरात्री तिथि: अष्टमी अहोरात्र नक्षत्र: पू.षा. ११:३६ योग: सुकर्म करण: भद्रा योगा: शुभ च.रा: १८:१४ सु.उ: ६:०६ सु.अ: १७:३० १	कार्तिक संक्रान्ति तिथि: अष्टमी ७:५३ नक्षत्र: उ.षा. १४:०२ योग: धृति करण: बालव योगा: मृत्यु च.रा: मकर सु.उ: ६:०६ सु.अ: १७:२६ २	महानवमी व्रत तिथि: नवमी ६:३४ नक्षत्र: श्रवण १६:१० योग: शूल करण: तैत्तिल योगा: लुम्ब च.रा: २६:५ सु.उ: ६:०७ सु.अ: १७:२८ ३	दशैं टिका, विजयादशमी तिथि: दशमी १०:५१ नक्षत्र: धनिष्ठा १७:५३ योग: गंड करण: वव योगा: मित्र च.रा: कुम्भ सु.उ: ६:०८ सु.अ: १७:२७ ४	पापाङ्गुशा एकादशी व्रत तिथि: एकादशी ११:४० नक्षत्र: शतभिषा १६:०८ योग: वृद्धि करण: बणिज योगा: वज्र च.रा: कुम्भ सु.उ: ६:०८ सु.अ: १७:२७ ५	प्रदोष व्रत तिथि: द्वादशी ११:५८ नक्षत्र: पू.भा. १६:५३ योग: ध्रुव करण: कौलव योगा: ध्वंक्ष च.रा: १३:४५ सु.उ: ६:०६ सु.अ: १७:२६ ६	संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस तिथि: त्रयोदशी ११:४६ नक्षत्र: उ.भा २०:०६ योग: व्याघात करण: गर योगा: धूम्र च.रा: मीन सु.उ: ६:१० सु.अ: १७:२५ ७
कोजाग्रत पूर्णिमा व्रत तिथि: चतुर्दशी ११:०४ नक्षत्र: रेवती १६:५६ योग: हर्षण करण: भद्रा योगा: प्रवर्द्ध च.रा: १६:५६ सु.उ: ६:१० सु.अ: १७:२४ ८	आकाशदीपदानारम्भ तिथि: पूर्णिमा ६:५६ नक्षत्र: अश्विनी १६:१६ योग: वरियान करण: बालव योगा: रक्ष च.रा: मेष सु.उ: ६:११ सु.अ: १७:२३ ९	कृष्ण पक्ष प्रारम्भ तिथि: प्रतिपदा ८:२४ नक्षत्र: भरणी १८:२० योग: सिद्धि करण: तैत्तिल योगा: मुसल च.रा: २४:२ सु.उ: ६:१२ सु.अ: १७:२२ १०	द्वितीया तिथि: द्वितीया ६:३३ नक्षत्र: कृत्तिका १७:०४ योग: व्यतिपात करण: वव योगा: सिद्धि च.रा: वृष सु.उ: ६:१२ सु.अ: १७:२१ ११	चतुर्थी तिथि: चतुर्थी २६:१० नक्षत्र: रोहिणी १५:३५ योग: वज्र करण: बणिज योगा: उत्पात च.रा: २६:४७ सु.उ: ६:१३ सु.अ: १७:२० १२	पंचमी तिथि: पंचमी २३:४८ नक्षत्र: मुगाशिरा १३:५८ योग: शिव करण: कौलव योगा: मानस च.रा: मिथुन सु.उ: ६:१४ सु.अ: १७:२० १३	षष्ठी तिथि: षष्ठी २१:२४ नक्षत्र: आर्द्रा १२:१८ योग: सिद्धि करण: गर योगा: सुदगर च.रा: २६:३ सु.उ: ६:१४ सु.अ: १७:१६ १४
रवी सप्तमी व्रत तिथि: सप्तमी १६:०५ नक्षत्र: पुनर्वसु १०:३६ योग: साध्य करण: भद्रा योगा: ध्वज च.रा: कर्कट सु.उ: ६:१५ सु.अ: १७:१८ १५	राधाअष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी १६:५५ नक्षत्र: तिष्य ६:०८ योग: शुभ करण: तैत्तिल योगा: धाता च.रा: कर्कट सु.उ: ६:१६ सु.अ: १७:१७ १६	नवमी तिथि: नवमी १४:५८ नक्षत्र: अश्लेषा ७:४८ योग: शुभ करण: वव योगा: आनन्द च.रा: ७:४८ सु.उ: ६:१६ सु.अ: १७:१७ १७	दशमी तिथि: दशमी १३:१६ नक्षत्र: मघा ६:४५ योग: ब्रह्म करण: बणिज योगा: चर च.रा: सिंह सु.उ: ६:१७ सु.अ: १७:१६ १८	रमा एकादशी व्रत तिथि: एकादशी १२:०१ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी २६:४२ योग: ऐंद्र करण: कौलव योगा: मातङ्ग च.रा: ११:५४ सु.उ: ६:१८ सु.अ: १७:१५ १९	प्रदोष व्रत, धनत्रयोदशी तिथि: द्वादशी ११:१० नक्षत्र: हस्त २६:५१ योग: वैधृति करण: गर योगा: अमृत च.रा: कन्या सु.उ: ६:१९ सु.अ: १७:१५ २०	काजा तिहार तिथि: त्रयोदशी १०:४७ नक्षत्र: चित्रा समस्त योग: प्रीति करण: भद्रा योगा: काण च.रा: १८:६ सु.उ: ६:१९ सु.अ: १७:१४ २१
कुकर तिहार, लक्ष्मी पूजा तिथि: चतुर्दशी १०:५४ नक्षत्र: चित्रा ६:२८ योग: आयुष्मान करण: चतुष्पद योगा: पशु च.रा: तुला सु.उ: ६:२० सु.अ: १७:१३ २२	गाई पूजा, गाई तिहार तिथि: औंसी ११:३३ नक्षत्र: स्वाती ७:३६ योग: सौभाग्य करण: किस्तुधन योगा: छत्र च.रा: २६:४६ सु.उ: ६:२१ सु.अ: १७:१३ २३	गोवर्द्धन पूजा, गोरु तिहार तिथि: प्रतिपदा १२:४१ नक्षत्र: विशाखा ६:१२ योग: शोभन करण: बालव योगा: श्रीवत्स च.रा: वृश्चिक सु.उ: ६:२२ सु.अ: १७:१२ २४	आईटिका तिथि: द्वितीया १४:१६ नक्षत्र: अनुराधा ११:१४ योग: अतिगंड करण: तैत्तिल योगा: सौम्य च.रा: वेश्चिक सु.उ: ६:२२ सु.अ: १७:१२ २५	तृतीया तिथि: तृतीया १६:११ नक्षत्र: ज्येष्ठा १३:३६ योग: सुकर्म करण: वव योगा: काल च.रा: १३:३६ सु.उ: ६:२३ सु.अ: १७:११ २६	चतुर्थी तिथि: चतुर्थी १८:१७ नक्षत्र: मूल १६:११ योग: धृति करण: बणिज योगा: स्थिर च.रा: धनु सु.उ: ६:२४ सु.अ: १७:११ २७	विश्व मधुमेह दिवस तिथि: पंचमी २०:२६ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी १८:४८ योग: शूल करण: बणिज योगा: मातङ्ग च.रा: २५:२६ सु.उ: ६:२५ सु.अ: १७:१० २८
छठ पर्व तिथि: षष्ठी २२:२६ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी २१:१७ योग: गंड करण: कौलव योगा: अमृत च.रा: मकर सु.उ: ६:२५ सु.अ: १७:१० २९	सप्तमी तिथि: सप्तमी २४:०६ नक्षत्र: श्रवण २३:२६ योग: वृद्धि करण: गर योगा: सिद्धि च.रा: मकर सु.उ: ६:२६ सु.अ: १७:०९ ३०	अन्नप्राशन: १३ र ३० गते धान्य छेदन: २६ र २ गते ५ गते दोकान खोले दिन: १५, १६, १६ र २६ गते	रुद्री जुने दिनहरु: १६, १६, २८, २६ र ३० गते अग्नी जुने दिन: १५, १७, १६, २७ र २६ गते	बच्चाको दाँत आउँदा पाईने फल १ महिना: आफ्नै नाश २ महिना: भाइ नाश ३ महिना: बहिनी नाश ४ महिना: आमालाई कष्ट ५ महिना: दाजु नाश	६ महिना: अत्यन्त सुख ७ महिना: पिताबाट सुख ८ महिना: शरीर पुष्टि ९ महिना: लक्ष्मी प्राप्ति १० महिना: सुखी (अन्य शुभ)	३१



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



मार्गशिर्ष २०८३

नेपाल संवत् १९४७

NOV./DEC. 2026

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
रुद्री जुने दिनहरू: २, ५, ६, ७, ८, १२, १३, १४, १५, १८, १९, २०, २५, २८ र २९ गते	विवाह मुहूर्तहरू: ५, १०, १६, १७, १८, २४, २५, २६ गते अन्नप्राशन मुहूर्तहरू: १० र १७ गते गृहारम्भ मुहूर्तहरू: ५, ८, १० गते	जोषाष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी २५:२७ नक्षत्र: धनिष्ठा २५:१९ योग: ध्रुव करण: भद्रा योगा: उत्पात च.रा: १२:२७ सु:उ: ६:२७ सु:अ: १७:०५	कुष्माण्डनवमी तिथि: नवमी २६:१६ नक्षत्र: शतभिषा २६:४० योग: व्याघात करण: बालव योगा: मानस च.रा: कुम्भ सु:उ: ६:२८ सु:अ: १७:०५	तिथि: दशमी २६:३४ नक्षत्र: पू.भा. २७:३२ योग: हर्षाण करण: तैत्तिल योगा: मुद्गार च.रा: २१:२२ सु:उ: ६:२९ सु:अ: १७:०८	हरिवोधनी एकादशी व्रत तिथि: एकादशी २६:३४ नक्षत्र: उ.भा. २७:५५ योग: वरिथान करण: वव योगा: ध्रुव च.रा: मीन सु:उ: ६:३० सु:अ: १७:०८	तिथि: द्वादशी २७:४० नक्षत्र: रेवती २७:४८ योग: सिद्धि करण: बणिज योगा: धाता च.रा: २७:४८ सु:उ: ६:३० सु:अ: १७:०८
प्रदोष व्रत तिथि: त्रयोदशी २८:३२ नक्षत्र: अर्द्रा २७:१७ योग: व्यतिपात करण: कौलव योगा: आनन्द च.रा: मेघ सु:उ: ६:३१ सु:अ: १७:०७	वैकुण्ठ चतुर्दशी व्रत तिथि: चतुर्दशी २८:०० नक्षत्र: भरणी २६:२२ योग: वरिथान करण: गर योगा: चर च.रा: मेघ सु:उ: ६:३२ सु:अ: १७:०७	पूर्णिमा व्रत तिथि: पूर्णिमा २९:१० नक्षत्र: कुत्तिका २५:१० योग: परिध करण: भद्रा योगा: गद च.रा: ६:८ सु:उ: ६:३३ सु:अ: १७:०७	मार्गशिर्ष कृष्णपक्ष प्रा. तिथि: प्रतिपदा १९:०५ नक्षत्र: रोहिणी २३:४४ योग: शिव करण: बालव योगा: शुभ च.रा: वृष सु:उ: ६:३३ सु:अ: १७:०७	तिथि: द्वितीया १६:४५ नक्षत्र: मृगशिरा २२:०८ योग: सिद्धि करण: वव योगा: मृत्यु च.रा: १०:५७ सु:उ: ६:३४ सु:अ: १७:०७	तिथि: तृतीया १६:२७ नक्षत्र: अर्द्रा २०:२८ योग: साध्य करण: बणिज योगा: पच च.रा: मिथुन सु:उ: ६:३५ सु:अ: १७:०७	तिथि: चतुर्थी १२:०५ नक्षत्र: पुनर्वसु १८:४५ योग: शुभ करण: कौलव योगा: छत्र च.रा: १३:१३ सु:उ: ६:३६ सु:अ: १७:०६
तिथि: पंचमी १८:४८ नक्षत्र: ति १७:१५ योग: ब्रह्म करण: गर योगा: श्रीवत्स च.रा: कर्कट सु:उ: ६:३७ सु:अ: १७:०६	तिथि: षष्ठी ७:३५ नक्षत्र: अश्लेषा १५:५२ योग: ऐंद्र करण: भद्रा योगा: सौम्य च.रा: १५:५२ सु:उ: ६:३७ सु:अ: १७:०६	औमाष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी २८:०८ नक्षत्र: मघा १४:४५ योग: वैधृति करण: बालव योगा: काल च.रा: सिंह सु:उ: ६:३८ सु:अ: १७:०६	तिथि: नवमी २६:५४ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी १३:५७ योग: विष्कम्भ करण: तैत्तिल योगा: स्थिर च.रा: १५:४८ सु:उ: ६:३९ सु:अ: १७:०६	विश्व अपाहृज दिवस तिथि: दशमी २६:०६ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी १३:३२ योग: प्रीति करण: वव योगा: मातङ्ग च.रा: कन्या सु:उ: ६:४० सु:अ: १७:०६	उत्पत्तिका एकादशी व्रत तिथि: एकादशी २५:४६ नक्षत्र: हस्त १३:३३ योग: आयुष्मान करण: बणिज योगा: अमृत च.रा: २५:४५ सु:उ: ६:४० सु:अ: १७:०६	तिथि: द्वादशी २५:५८ नक्षत्र: चित्रा १४:०४ योग: सौभाग्य करण: कौलव योगा: काण च.रा: तुला सु:उ: ६:४१ सु:अ: १७:०६
प्रदोष व्रत तिथि: त्रयोदशी २६:४० नक्षत्र: स्वाती २०:५७ योग: शोभन करण: गर योगा: लुम्ब च.रा: तुला सु:उ: ६:४२ सु:अ: १७:०७	बालाचतुर्दशी, शतवीज रोपने तिथि: चतुर्दशी २७:५२ नक्षत्र: विशाखा १६:३५ योग: अतिगड करण: भद्रा योगा: मित्र च.रा: १०:१० सु:उ: ६:४३ सु:अ: १७:०७	दर्श श्राद्ध तिथि: औंसी २५:३० नक्षत्र: अनुराधा १८:३१ योग: सुकर्मा करण: चतुष्पद योगा: ध्रुव च.रा: वृश्चिक सु:उ: ६:४३ सु:अ: १७:०७	मार्गशिर्ष शुक्लपक्ष प्रा. तिथि: प्रतिपदा अहोरात्र नक्षत्र: ज्येष्ठा २०:४५ योग: धृति करण: किंजुध्न योगा: ध्रुव च.रा: २०:४५ सु:उ: ६:४४ सु:अ: १७:०७	मानव अधिकार दिवस तिथि: प्रतिपदा ७:२७ नक्षत्र: मूल २३:२२ योग: शूल करण: बालव योगा: ध्रुव च.रा: धनु सु:उ: ६:४५ सु:अ: १७:०७	तिथि: द्वितीया ८:३६ नक्षत्र: पू.षा. २५:५५ योग: गड करण: तैत्तिल योगा: प्रवर्द्ध च.रा: धनु सु:उ: ६:४५ सु:अ: १७:०८	तिथि: तृतीया ११:४६ नक्षत्र: उ.षा. २८:३१ योग: वृद्धि करण: वव योगा: रक्ष च.रा: ट:३८ सु:उ: ६:४६ सु:अ: १७:०८
तिथि: चतुर्थी १३:४६ नक्षत्र: श्रवण अहोरात्र योग: ध्रुव करण: बणिज योगा: गद च.रा: मकर सु:उ: ६:४७ सु:अ: १७:०८	विवाह पञ्चमी तिथि: पंचमी १५:२८ नक्षत्र: श्रवण ६:४८ योग: व्यतिपात करण: कौलव योगा: सिद्धि च.रा: १५:४८ सु:उ: ६:४७ सु:अ: १७:०८	तिथि: षष्ठी १६:४६ नक्षत्र: धनिष्ठा ८:४३ योग: हस्त करण: गर योगा: उत्पात च.रा: कुम्भ सु:उ: ६:४८ सु:अ: १७:०८	धान्य छेदन: ३ र १० गते न्वागी खाने दिनहरू: ६, १० र २० गते दोकान खोल्ने: ५, ६, ९, १०, १३, १७, १९ र २६ गते	अग्नी जुने दिन: १, ३, ५, ६, ८, १०, १२, १४, १५, १७, १९, २१, २४, २६ र २८ गते	परम पने बार शनिवार, सोम, पुर्व, बिहीवार, दक्षिण, आईतबार, शुक्रवार: पश्चिम मंगलबार, बुधवार: उत्तर	



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



पौष २०८३

नेपाल संवत् १९८७

DEC. 2026/JAN. 2027

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
<p>अन्नप्राशन मुहूर्तहरू: १ र १५ गते गृहारम्भ मुहूर्तहरू: १, ४ र ११ गते देकान खोल्ने मुहूर्तहरू: ४, ११, १५ र २५ गते</p>	<p>रुद्री जुने दिनहरू: १, ३, ६, ७, ८, १२, १३, १४, १६, १८, २०, २१, २५, २६ र ३० गते</p>	<p>अग्नी जुने दिन: १, ३, ६, ८, १०, १३, १५, १७, १९, २१, २४, २८ र ३० गते</p>	<p>पौष संक्रान्ति तिथि: सप्तमी १७:३४ नक्षत्र: शतभिषा १०:११ योग: वरियन करण: भद्रा योगा: मानस च.रा: २८:५८ सु:उ: ६:४६ सु:अ: १७:०६</p> <p>१ 16</p>	<p>अष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी १७:५१ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी ११:१० योग: सिद्धि करण: बालव योगा: मुद्गर च.रा: मीन सु:उ: ६:४६ सु:अ: १७:१०</p> <p>२ 17</p>	<p>तिथि: नवमी १७:३७ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी ११:३६ योग: व्यतिपात करण: तैत्तिल योगा: ध्वज च.रा: मीन सु:उ: ६:५० सु:अ: १७:१०</p> <p>३ 18</p>	<p>तिथि: दशमी १६:५४ नक्षत्र: रेवती ११:३६ योग: वरियन करण: वव योगा: धाता च.रा: ११:३६ सु:उ: ६:५१ सु:अ: १७:१०</p> <p>४ 19</p>
<p>मोक्षदा एकादशी व्रत तिथि: एकादशी १५:४४ नक्षत्र: अश्विनी ११:१३ योग: शिव करण: बणिज योगा: आनन्द च.रा: मेष सु:उ: ६:५१ सु:अ: १७:११</p> <p>५ 20</p>	<p>गौरी जयन्ति तिथि: द्वादशी १४:१२ नक्षत्र: भरणी १०:२४ योग: सिद्धि करण: कौलव योगा: चर च.रा: १६:८ सु:उ: ६:५२ सु:अ: १७:११</p> <p>६ 21</p>	<p>तिथि: त्रयोदशी १२:२१ नक्षत्र: कृत्तिका ९:५५ योग: गर करण: गर योगा: गद च.रा: वृष सु:उ: ६:५२ सु:अ: १७:१२</p> <p>७ 22</p>	<p>पूर्णिमा व्रत तिथि: चतुर्दशी १०:१५ नक्षत्र: रोहिणी ७:४२ योग: शुभ करण: भद्रा योगा: शुभ च.रा: १६:६ सु:उ: ६:५२ सु:अ: १७:१२</p> <p>८ 23</p>	<p>धान्य पूर्णिमा तिथि: पूर्णिमा ८:० नक्षत्र: आर्द्रा २८:३८ योग: शुभ करण: बालव योगा: काण च.रा: मिथुन सु:उ: ६:५३ सु:अ: १७:१३</p> <p>९ 24</p>	<p>क्रिसमस डे तिथि: द्वितीया २७:१८ नक्षत्र: पुनर्वसु २६:५८ योग: ब्रह्म करण: तैत्तिल योगा: लुम्ब च.रा: २१:२३ सु:उ: ६:५४ सु:अ: १७:१४</p> <p>१० 25</p>	<p>तिथि: तृतीया २५:०१ नक्षत्र: ति २५:२३ योग: ऐंद्र करण: वव योगा: मित्र च.रा: कर्कट सु:उ: ६:५४ सु:अ: १७:१४</p> <p>११ 26</p>
<p>तिथि: चतुर्थी २२:५५ नक्षत्र: श्लेषा २३:५७ योग: विष्कम्भ करण: बणिज योगा: वज्र च.रा: २३:५७ सु:उ: ६:५४ सु:अ: १७:१५</p> <p>१२ 27</p>	<p>तिथि: पंचमी २१:०२ नक्षत्र: मघा २२:४६ योग: प्रीति करण: कौलव योगा: ध्वज च.रा: सिंह सु:उ: ६:५५ सु:अ: १७:१५</p> <p>१३ 28</p>	<p>तिथि: षष्ठी १९:२८ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी २१:५३ योग: आयुष्मान करण: गर योगा: धूम्र च.रा: २७:४३ सु:उ: ६:५५ सु:अ: १७:१६</p> <p>१४ 29</p>	<p>तमू ल्होसार तिथि: सप्तमी १८:१७ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी २१:२२ योग: सौभाग्य करण: भद्रा योगा: प्रवर्द्ध च.रा: कन्या सु:उ: ६:५६ सु:अ: १७:१७</p> <p>१५ 30</p>	<p>अष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी १७:३२ नक्षत्र: हस्त २१:१८ योग: शोभन करण: तैत्तिल योगा: रक्ष च.रा: कन्या सु:उ: ६:५६ सु:अ: १७:१७</p> <p>१६ 31</p>	<p>तिथि: नवमी १७:१५ नक्षत्र: चित्रा २१:४२ योग: अतिगंड करण: वव योगा: मुसल च.रा: ६:२६ सु:उ: ६:५६ सु:अ: १७:१८</p> <p>१७ 1</p>	<p>तिथि: दशमी १७:३० नक्षत्र: स्वाती २२:३५ योग: सुद्धि करण: बणिज योगा: सिद्धि च.रा: तुला सु:उ: ६:५६ सु:अ: १७:१८</p> <p>१८ 2</p>
<p>सफला एकादशी व्रत तिथि: एकादशी १८:१६ नक्षत्र: विशाखा २३:५६ योग: धृति करण: कौलव योगा: उत्पात च.रा: १७:३५ सु:उ: ६:५७ सु:अ: १७:१६</p> <p>१९ 3</p>	<p>तिथि: द्वादशी १६:३१ नक्षत्र: अनुराधा २५:५० योग: शूल करण: गर योगा: मानस च.रा: वृश्चिक सु:उ: ६:५७ सु:अ: १७:२०</p> <p>२० 4</p>	<p>औम प्रदोष व्रत तिथि: त्रयोदशी २१:११ नक्षत्र: ज्येष्ठा २८:०३ योग: गंड करण: गर योगा: मुद्गर च.रा: २८:३ सु:उ: ६:५७ सु:अ: १७:२१</p> <p>२१ 5</p>	<p>तिथि: चतुर्दशी २३:११ नक्षत्र: मूल ३०:३३ योग: वृद्धि करण: भद्रा योगा: ध्वज च.रा: धनु सु:उ: ६:५७ सु:अ: १७:२२</p> <p>२२ 6</p>	<p>पौष औंसी तिथि: औंसी २५:२१ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी अहोरात्र योग: ध्रुव करण: चतुष्पद योगा: धाता च.रा: धनु सु:उ: ६:५८ सु:अ: १७:२२</p> <p>२३ 7</p>	<p>तोल ल्होसार तिथि: प्रतिपदा २७:३१ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी ६:१० योग: व्याघात करण: किंशुधन योगा: प्रवर्द्ध च.रा: १५:४६ सु:उ: ६:५८ सु:अ: १७:२३</p> <p>२४ 8</p>	<p>तिथि: द्वितीया २५:३० नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी ११:४४ योग: हस्त करण: बालव योगा: चर च.रा: मकर सु:उ: ६:५८ सु:अ: १७:२४</p> <p>२५ 9</p>
<p>तिथि: तृतीया अहोरात्र नक्षत्र: श्रवण १४:०५ योग: वरियन करण: तैत्तिल योगा: गद च.रा: २७:८ सु:उ: ६:५८ सु:अ: १७:२५</p> <p>२६ 10</p>	<p>पृथ्वी जयन्ती तिथि: तृतीया ७:१० नक्षत्र: धनिष्ठा १६:०६ योग: सिद्धि करण: वव योगा: शुभ च.रा: कुम्भ सु:उ: ६:५८ सु:अ: १७:२६</p> <p>२७ 11</p>	<p>मंगलचतुर्थी व्रत तिथि: चतुर्थी ८:२५ नक्षत्र: शतभिषा १७:४१ योग: व्यतिपात करण: बणिज योगा: मृत्यु च.रा: कुम्भ सु:उ: ६:५८ सु:अ: १७:२६</p> <p>२८ 12</p>	<p>तिथि: पंचमी ९:१० नक्षत्र: पू.भा. १८:४७ योग: वरियन करण: कौलव योगा: पञ्च च.रा: १२:३३ सु:उ: ६:५८ सु:अ: १७:२७</p> <p>२९ 13</p>	<p>तिथि: षष्ठी ९:२५ नक्षत्र: उभा १६:२२ योग: परिध करण: गर योगा: छत्र च.रा: मीन सु:उ: ६:५८ सु:अ: १७:२८</p> <p>३० 14</p>	<p>पुराणका नाम श्लोक संख्या</p> <p>१. ब्रह्म पुराण १०,००० २. पद्म पुराण ५५,००० ३. विष्णु पुराण २३,००० ४. शिव पुराण २४,००० ५. श्रीमद्भागवत १८,००० ६. भविष्य पुराण १४,५०० ७. नारद पुराण २५,००० ८. बाराह पुराण २४,००० ९. लिङ्ग पुराण ११,०००</p>	<p>पुराणका नाम श्लोक संख्या</p> <p>१०. ब्रह्म वैवर्त पुराण १८,००० ११. कुर्म पुराण १७,००० १२. मत्स्य पुराण १४,००० १३. वामन पुराण १०,००० १४. स्कंद पुराण ८१,१०० १५. मार्कंडेय पुराण ६,००० १६. गरुड पुराण १६,००० १७. ब्रह्माण्ड पुराण १२,००० १८. अग्नि पुराण १४,४००</p>



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



नेपाल संवत् १९८७

माघ २०८३

JAN./FEB. 2027

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
<p>व्रतवन्ध मुहूर्तहरू: २५ गते विवाह मुहूर्तहरू: ४, १२, १५, १८, २० र २७ गते अन्नप्राशन मुहूर्तहरू: १५ र २५ गते दोकानखोले मुहूर्तहरू: ८, १४ र २२ गते</p>	<p>रुद्री जुने दिनहरू: १, ३, ५, ६, ७, ८, १२, १३, १४, १६, १८, २०, २१, २५, २८ र २९ गते</p>	<p>कून औलाले टीका लगाउँदा केके फल मिल्दछ अनामिका शान्तिदोत्ता मध्यमायुष्करी भवेत् । अद्भुतं पुष्टिदः प्रोक्तः तर्जनी मोक्षदायिनी ।।</p>	<p>टीका लगाउँदा साहिली औलाले लगाए शान्ति मिल्दछ माहिली औलाले लगाए आयु बढ्दछ, बूढी औलाले लगाए पुष्टि प्राप्त हुन्छ र चोर औलाले लगाए मोक्ष मिल्दछ ।</p>		<p>माघ संक्रान्ति, माघी पर्व तिथि: सप्तमी ८:०८ नक्षत्र: रेवती १८:२५ योग: शिव करण: भद्रा योगा: श्रीवत्स च.रा: १८:२५ सु.उ: ६:५८ सु.अ: १७:२५</p>	<p>अष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी ८:२३ नक्षत्र: अश्विनी १८:०५ योग: सिद्धि करण: बालव योगा: सौम्य च.रा: मेघ सु.उ: ६:५८ सु.अ: १७:३०</p>
<p>तिथि: नवमी ७:११ नक्षत्र: भद्रा १८:२४ योग: साध्य करण: तैत्तिल योगा: काल च.रा: २४:१० सु.उ: ६:५८ सु.अ: १७:३०</p>	<p>स्मार्तानाम् पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि: एकादशी २७:४४ नक्षत्र: कुत्तिका १७:२० योग: शुभ करण: वव योगा: स्थिर च.रा: वृष सु.उ: ६:५७ सु.अ: १७:३१</p>	<p>वैष्णवानाम् पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि: द्वादशी २५:३७ नक्षत्र: रोहिणी १५:५५ योग: ब्रह्म करण: बणिज योगा: मातङ्ग च.रा: २७:१४ सु.उ: ६:५७ सु.अ: १७:३२</p>	<p>प्रदोष व्रत तिथि: त्रयोदशी २३:२० नक्षत्र: मृगशिरा १४:२७ योग: ऐं करण: कौलव योगा: अमृत च.रा: मिथुन सु.उ: ६:५७ सु.अ: १७:३३</p>	<p>तिथि: चतुर्दशी २०:५५ नक्षत्र: आर्द्रा १२:४५ योग: वैधति करण: गर योगा: काण च.रा: २५:३३ सु.उ: ६:५७ सु.अ: १७:३४</p>	<p>पूर्णिमा व्रत, श्रीस्वस्थानी व्रत आरम्भ तिथि: पूर्णिमा १८:३८ नक्षत्र: पुष्य ११:०८ योग: विष्कुभ करण: भद्रा योगा: लुम्ब च.रा: कर्कट सु.उ: ६:५७ सु.अ: १७:३४</p>	<p>माघ कृष्ण पक्ष प्रा. तिथि: प्रतिपदा १६:२२ नक्षत्र: तिष्य ८:३१ योग: प्रीति करण: तैत्तिल योगा: मित्र च.रा: कर्कट सु.उ: ६:५६ सु.अ: १७:३५</p>
<p>तिथि: द्वितीया १४:१६ नक्षत्र: श्लेषा ८:३ योग: आयुष्मान करण: वव योगा: वज्र च.रा: ८:३ सु.उ: ६:५६ सु.अ: १७:३६</p>	<p>तिथि: तृतीया १२:२५ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी २५:५० योग: शोभन करण: बणिज योगा: ध्वज च.रा: सिंह सु.उ: ६:५६ सु.अ: १७:३७</p>	<p>मंगलचौथी व्रत तिथि: चतुर्थी १०:५३ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी २५:१४ योग: अतिगंड करण: कौलव योगा: धाता च.रा: ११:३५ सु.उ: ६:५५ सु.अ: १७:३८</p>	<p>तिथि: पंचमी ८:४३ नक्षत्र: हस्त २५:०३ योग: सुकर्म करण: गर योगा: आनन्द च.रा: कन्या सु.उ: ६:५५ सु.अ: १७:३९</p>	<p>तिथि: षष्ठी ८:०० नक्षत्र: चित्रा २५:२१ योग: धृति करण: भद्रा योगा: चर च.रा: १७:८ सु.उ: ६:५५ सु.अ: १७:४०</p>	<p>अष्टमी व्रत तिथि: सप्तमी ८:४६ नक्षत्र: स्वाती ३०:०७ योग: शूल करण: बालव योगा: गद च.रा: तुला सु.उ: ६:५४ सु.अ: १७:४०</p>	<p>शाहिव दिवस तिथि: अष्टमी ८:०३ नक्षत्र: विशाखा अहोरात्र योग: गंड करण: तैत्तिल योगा: शुभ च.रा: २५:२ सु.उ: ६:५४ सु.अ: १७:४१</p>
<p>तिथि: नवमी ६:५१ नक्षत्र: विशाखा ७:२४ योग: वृद्धि करण: वव योगा: उत्पात च.रा: वृश्चिक सु.उ: ६:५३ सु.अ: १७:४२</p>	<p>तिथि: दशमी ११:०८ नक्षत्र: अनुराधा ८:०५ योग: ध्रुव करण: बणिज योगा: मानस च.रा: वृश्चिक सु.उ: ६:५६ सु.अ: १७:४३</p>	<p>षट्तिला एकादशी व्रत तिथि: एकादशी १२:४५ नक्षत्र: ज्येष्ठा ११:१८ योग: व्याघात करण: कौलव योगा: मृदगर च.रा: ११:१८ सु.उ: ६:५२ सु.अ: १७:४५</p>	<p>प्रदोष व्रत तिथि: द्वादशी १४:४५ नक्षत्र: मूल १३:४५ योग: हर्षण करण: गर योगा: ध्वज च.रा: धनु सु.उ: ६:५२ सु.अ: १७:४५</p>	<p>श्री केवशेश्वर वैदिक गुरुकुल वार्षिकोत्सव तिथि: त्रयोदशी १६:५५ नक्षत्र: पू.षा. १६:२१ योग: वज्र करण: भद्रा योगा: धाता च.रा: २३:० सु.उ: ६:५१ सु.अ: १७:४५</p>	<p>तिथि: चतुर्दशी १५:०७ नक्षत्र: उ.षा १८:५७ योग: सिद्धि करण: चतुष्पद योगा: आनन्द च.रा: मकर सु.उ: ६:५१ सु.अ: १७:४६</p>	<p>दर्श श्राद्ध तिथि: औसौ २१:०४ नक्षत्र: श्रवण २१:२१ योग: व्यतिपात करण: चतुष्पद च.रा: मकर सु.उ: ६:५० सु.अ: १७:४७</p>
<p>सोनम तथा तामाङ ल्होसार तिथि: प्रतिपदा २२:४२ नक्षत्र: धनिष्ठा २३:२७ योग: वरियन करण: किस्तुध्न योगा: मातङ्ग च.रा: १०:२० सु.उ: ६:४५ सु.अ: १७:४८</p>	<p>तिथि: द्वितीया २३:५३ नक्षत्र: शतभिषा २५:०८ योग: परिघ करण: बालव योगा: अमृत च.रा: कुम्भ सु.उ: ६:४५ सु.अ: १७:४८</p>	<p>तिथि: तृतीया २४:३५ नक्षत्र: पू.भा. २६:२१ योग: शिव करण: तैत्तिल योगा: काण च.रा: २०:६ सु.उ: ६:४८ सु.अ: १७:४८</p>	<p>तिलकुण्ड चतुर्थी तिथि: चतुर्थी २४:४५ नक्षत्र: उ.भा. २७:०४ योग: सिद्धि करण: वव योगा: लुम्ब च.रा: मीन सु.उ: ६:४७ सु.अ: १७:५०</p>	<p>श्रीपञ्चमी, सरस्वती पूजा तिथि: पंचमी २४:२५ नक्षत्र: रेवती २७:१७ योग: साध्य करण: बणिज योगा: मित्र च.रा: २७:१७ सु.उ: ६:४७ सु.अ: १७:५१</p>	<p>तिथि: षष्ठी २३:३६ नक्षत्र: अश्विनी २७:०३ योग: शुभ करण: कौलव योगा: वज्र च.रा: मेघ सु.उ: ६:४६ सु.अ: १७:५१</p>	<p>अग्नी जुने दिन: २, ३, ५, ७, ९, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६ र २८ गते</p>



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org



समाजका उद्देश्यहरू:

- मानवमात्रको कल्याण र उत्थानका लागि प्राचीन कालमा ब्राह्मण ऋषिहर्षिहरूले गरेका योगदानहरूको स्मरण गर्दै त्यसै दिशातिर लाग्न वर्तमान र भविष्यका ब्राह्मण समुदायलाई प्रेरित गर्ने ।
- नेपाली समाजमा फैलिन लागेको जातीय विद्वेष हटाउंदै सह-अस्तित्व, सद्भाव र सहिष्णुताको विकास गर्ने ।
- ब्राह्मण समुदायभित्र रहेका अनेक आन्तरिक विभेद र समस्याहरू सुल्काउंदै सबैबीच पारस्परिक आत्मीय एकता कायम गर्ने ।
- व्यक्तिवादी र कर्मकाण्डमुखी हुंदै गएको ब्राह्मण जातीलाई समुदायमुखी र मानवतावादी बनाउंदै समाजसेवामूलक कार्यतर्फ अग्रसर गराउने ।
- गरिब, जेहेन्दार र पिछाडिएका बालबालिकाको शैक्षिक, आर्थिक र समाजिक उत्थानका लागि यथोचित कार्य गर्ने ।
- ब्राह्मण भन्ने कुरा मानिसको एउटा जातमा मात्र निर्भर नभएर मानिसभित्र हुने उच्चतर बुद्धि, विवेक र सत्योन्मुखी ज्ञानराशि पनि हो । त्यसको विकास गर्नका लागि व्यवहारमूलक ज्ञानयज्ञ, सत्संग, प्रशिक्षण, साधनाशिविरको व्यवस्था गर्दै जाने ।
- हाम्रा पूर्वज ऋषिहर्षिहरूले आर्जन गरेका ज्ञानराशि र आविष्कार गरेका वैज्ञानिक चिन्तन, संस्कृत भाषामा सुरक्षित भएकाले लोककल्याणका लागि उक्त भाषाको विकास, पठनपाठन र अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने ।
- हाम्रो धार्मिक एवम् सांस्कृतिक कर्मसंस्कारलाई समयसापेक्ष एवम् व्यवहारिक बनाउंदै लैजाने र ती भित्रका जिवनोपयोगी वैज्ञानिक पक्षलाई उजागर गर्दै जाने ।
- जातीय एकताका माध्यमबाट माथि उठ्दै अन्तरजातीय एकता र राष्ट्रिय एकता हुंदै सम्पूर्ण मानवीय एकतालाई आत्मसात गरी अन्त्यमा विश्व मानवतामा प्रतिष्ठित हुनु यस समाजको परम उद्देश्य हो ।

नेपाल संवत् १९८७

फाल्गुण २०८३

FEB./MAR. 2027

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
तिथि: षष्ठी ११:१५ नक्षत्र: कृत्तिका १२:२६ योग: विष्कुम्भ करण: गर योगा: धूम्र च.रा: वृष सु.उ: ६:१७ सु.अ: १८:११ 30 14	व्रतवन्ध मुहूर्तहरू: १०, १३ र २६ गते विवाह मुहूर्तहरू: ३, ४, ११, १२, १५, १६, १७, १८, २०, २५, २६ र ३० गते	अन्नप्राशन मुहूर्तहरू: ७, १३ र २६ गते गृहारम्भ मुहूर्तहरू: ७ र १३ गते दोकानखोल्ने दिन: ७, १३, २० र २६ गते	गृह प्रवेश: २० गते	रुद्री जुने दिनहरू: १, ३, ६, ७, ८, ९, १२, १३, १४, १६, १९, २०, २१, २३, २६, २९ र ३० गते	अग्नी जुने दिन: १,३,५,७,१०,१२,१४, १७,१९,२०,२२,२३, २६,२८ र ३० गते	फाल्गुन संक्रान्ति तिथि: सप्तमी २२:२२ नक्षत्र: भरणी २६:२३ योग: शुभ करण: कौलव योगा: वज्र च.रा: मेष सु.उ: ६:३६ सु.अ: १७:५१ 9 13
अष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी २०:४५ नक्षत्र: कृत्तिका २५:२३ योग: ब्रह्म करण: भद्रा योगा: धूम्र च.रा: ट:१० सु.उ: ६:४४ सु.अ: १७:५३ 2 14	द्रोण नवमी तिथि: नवमी १८:५० नक्षत्र: रोहिणी २४:०६ योग: ऐंद्र करण: बालव योगा: प्रवर्द्ध च.रा: वृष सु.उ: ६:४४ सु.अ: १७:५४ 3 15	तिथि: दशमी १६:४१ नक्षत्र: मृगशिरा २२:३६ योग: वैधृति करण: वव योगा: रक्ष च.रा: ११:२२ सु.उ: ६:४३ सु.अ: १७:५४ 8 16	मीमा एकादशी व्रत तिथि: एकादशी १४:२३ नक्षत्र: आर्द्रा २०:५९ योग: प्रीति करण: बणिज योगा: सुसल च.रा: मिथुन सु.उ: ६:४२ सु.अ: १७:५५ 5 17	प्रदोष व्रत तिथि: द्वादशी १२:०० नक्षत्र: पुष्य १९:१८ योग: आयुष्मान करण: कौलव योगा: सिद्धि च.रा: १३:४३ सु.उ: ६:४१ सु.अ: १७:५६ 6 18	राष्ट्रिय प्रजानन्त्र दिवस तिथि: त्रयोदशी १३:३८ नक्षत्र: ति १७:४० योग: सौभाग्य करण: गर योगा: उत्पत च.रा: कर्कट सु.उ: ६:४० सु.अ: १७:५७ 6 19	श्रीस्वस्थानी पूर्णिमा व्रत समाप्ती तिथि: चतुर्दशी ७:२२ नक्षत्र: रोहिणी १६:१० योग: शोभन करण: भद्रा योगा: मानस च.रा: १६:१० सु.उ: ६:३९ सु.अ: १७:५७ 7 20
फाल्गुण कृष्ण प्रा. तिथि: प्रतिपदा २७:२५ नक्षत्र: मघा १४:५१ योग: अतिगंड करण: बालव योगा: मुद्गर च.रा: सिंह सु.उ: ६:३९ सु.अ: १७:५८ 1 21	तिथि: द्वितीया २५:५३ नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी १३:४९ योग: सुकर्म करण: तैतिल योगा: ध्वज च.रा: १६:३७ सु.उ: ६:३८ सु.अ: १७:५९ 90 22	तिथि: तृतीया २४:४४ नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी १३:०८ योग: धृति करण: वव योगा: धाता च.रा: कन्या सु.उ: ६:३७ सु.अ: १७:५९ 99 23	तिथि: चतुर्थी २४:०२ नक्षत्र: हस्त १२:५१ योग: गंड करण: बणिज योगा: आनन्द च.रा: २४:५२ सु.उ: ६:३६ सु.अ: १८:०० 92 24	तिथि: पंचमी २३:४९ नक्षत्र: चित्रा १३:०१ योग: वृद्धि करण: कौलव योगा: चर च.रा: तुला सु.उ: ६:३५ सु.अ: १८:०१ 93 25	तिथि: षष्ठी २४:०७ नक्षत्र: स्वाती १३:४१ योग: ध्रुव करण: गर योगा: गद च.रा: तुला सु.उ: ६:३४ सु.अ: १८:०१ 98 26	तिथि: सप्तमी २४:५५ नक्षत्र: विशाखा १४:५१ योग: व्याघ्रत करण: भद्रा योगा: शुभ च.रा: ट:३१ सु.उ: ६:३३ सु.अ: १८:०२ 94 27
अष्टमी व्रत तिथि: अष्टमी २६:१२ नक्षत्र: अनुराधा १६:३० योग: हर्षण करण: बालव योगा: मृत्यु च.रा: वृश्चिक सु.उ: ६:३२ सु.अ: १८:०३ 96 28	तिथि: नवमी २७:५४ नक्षत्र: ज्येष्ठा १८:३४ योग: वरियन करण: तैतिल योगा: पद्म च.रा: १८:३४ सु.उ: ६:३१ सु.अ: १८:०३ 97 1	तिथि: दशमी २६:५३ नक्षत्र: मूल २०:५७ योग: सिद्धि करण: वव योगा: छत्र च.रा: धनु सु.उ: ६:३० सु.अ: १८:०४ 98 2	तिथि: एकादशी अहोरात्र नक्षत्र: पूर्वा २३:३२ योग: व्यतिपात करण: बणिज योगा: श्रीवन्स च.रा: ३०:११ सु.उ: ६:२९ सु.अ: १८:०४ 95 3	विजया एकादशी व्रत तिथि: एकादशी ८:०१ नक्षत्र: उषा २६:०९ योग: वरियन करण: कौलव योगा: सौम्य च.रा: मकर सु.उ: ६:२८ सु.अ: १८:०५ 20 4	प्रदोष व्रत तिथि: द्वादशी १०:०७ नक्षत्र: श्रवण २८:३७ योग: परिघ करण: गर योगा: धूम्र च.रा: मकर सु.उ: ६:२७ सु.अ: १८:०६ 29 5	महाशिवरात्री व्रत तिथि: त्रयोदशी १२:०१ नक्षत्र: धनिष्ठा अहोरात्र योग: शिव करण: भद्रा योगा: प्रवर्द्ध च.रा: १७:४५ सु.उ: ६:२६ सु.अ: १८:०६ 22 6
तिथि: चतुर्दशी १३:३५ नक्षत्र: धनिष्ठा ६:४७ योग: सिद्धि करण: चतुष्पद योगा: मातङ्ग च.रा: कुम्भ सु.उ: ६:२५ सु.अ: १८:०७ 23 7	दर्श श्राद्ध, नारी दिवस तिथि: औंसी १४:४३ नक्षत्र: शतभिषा ट:३५ योग: साध्य करण: किस्तुधन योगा: अमृत च.रा: २७:३७ सु.उ: ६:२४ सु.अ: १८:०७ 28 8	ज्याल्पो ल्होसार तिथि: प्रतिपदा १५:२१ नक्षत्र: पूर्वा १५:५४ योग: शुभ करण: बालव योगा: काण च.रा: मीन सु.उ: ६:२३ सु.अ: १८:०८ 25 9	तिथि: द्वितीया १५:२८ नक्षत्र: उभा १०:४४ योग: शुभ करण: तैतिल योगा: लुम्ब च.रा: मीन सु.उ: ६:२२ सु.अ: १८:०९ 26 10	तिथि: तृतीया १५:०४ नक्षत्र: रेवती ११:०४ योग: ब्रह्म करण: वव योगा: मित्र च.रा: ११:४ सु.उ: ६:२१ सु.अ: १८:०९ 27 11	तिथि: चतुर्थी १४:१२ नक्षत्र: अश्लेषा १०:५५ योग: ऐंद्र करण: बणिज योगा: वज्र च.रा: मेष सु.उ: ६:१९ सु.अ: १८:१० 28 12	तिथि: पंचमी १२:५५ नक्षत्र: भद्रा १०:२२ योग: वैधृति करण: कौलव योगा: वज्र च.रा: १६:१० सु.उ: ६:१८ सु.अ: १८:१० 25 13



ब्राह्मण समाज नेपाल

www.brahmansamajnepal.org

वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण

नाम	पद	सम्पर्क
प्रा.डा. नारायणप्रसाद अधिकारी	केन्द्रीय अध्यक्ष	९७६८००९३०५
प्रा. मोहनप्रसाद भण्डारी	निवर्तमान अध्यक्ष	९८४२६५०८४२
महेश पराजुली	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	९८५६०२१७५५
वासुदेव भट्टराई	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	९८४७७०८०३४४
जयानन्द शर्मा	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	९८४७६५५७३
डिल्लीराम उप्रेती	उपाध्यक्ष	९८४२६६३१३४
देवनाथ उपाध्याय	उपाध्यक्ष	९८४३०४०८०८
महेश्वर शर्मा पौडेल	उपाध्यक्ष	९८५११३३२३५
भेषराज लम्साल	उपाध्यक्ष	९८५६०६९३८३
हरिश्चन्द्र उपाध्याय	उपाध्यक्ष	९८४८९१८४४५
विष्णुप्रसाद भट्ट	उपाध्यक्ष	९८४८४७७५२६
ओम शर्मा चापागाईं	महासचिव/प्रवक्ता	९८४९२१४८१
सेवन्तराज बराल	सचिव	९८४२०५२२०५
प्रेमलाल पाण्डे	सचिव	९७०५३३७३२४
सीता घिमिरे	सचिव	९८५११२८२५६
पृथ्वी पौडेल	सचिव	९८५६०२५८३
राधिका खराल न्यौपाने	सचिव	९८४७३२६४८८
तुलसी प्रसाद पाण्डे	सचिव	९८४८०३६०१
हिरण्य प्रसाद उपाध्याय	सचिव	९८४८४४०८२४
उपेन्द्र लम्साल	कोषाध्यक्ष	९८५६०६०३६३

नाम	पद	नाम	पद	नाम	पद	नाम	पद
कोशी प्रदेश सदस्यः		बागमती प्रदेश सदस्यः		लुम्बिनी प्रदेश सदस्यः		सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्यः	
कृष्णप्रसाद घिमिरे	सदस्य	सीताराम बर्तौला	सदस्य	नारायण प्रसाद सुवेदी	सदस्य	रमा गौतम	सदस्य
उद्वप्रसाद अधिकारी	सदस्य	प्रवीण घिमिरे	सदस्य	खगराज पाण्डे	सदस्य	गाविन्द दाहाल	सदस्य
मुक्तिनाथ निरौला	सदस्य	भोजराज बास्तोला	सदस्य	धनेश्वर रेग्मी	सदस्य	कृष्णराज उपाध्याय	सदस्य
हिमप्रसाद ओझा	सदस्य	डा. नारायणहरि गजुरेल	सदस्य	रामप्रसाद सुवेदी	सदस्य	दुर्गा कुमारी अधिकारी	सदस्य
अरुणा पोखरेल	सदस्य	केदारनाथ पाठक	सदस्य	कर्णाली प्रदेश सदस्यः		धर्मप्रसाद उपाध्याय आचार्य	सदस्य
मैयां तिमिसिना आचार्य	सदस्य	हरिभक्त उपाध्याय अधिकारी	सदस्य	युवराज भण्डारी	सदस्य	नन्दलाल शर्मा	सदस्य
सरस्वती पौडेल	सदस्य	टंकप्रसाद रिमाल	सदस्य	होमनाथ न्यौपाने	सदस्य	पुरादी अधिकारी	सदस्य
सीताराम आचार्य	सदस्य	अरुणकुमार पाण्डे	सदस्य	हरिशंकर बस्याल	सदस्य	बलिराम देवकोटा	सदस्य
कमल प्रसाद भट्टराई	सदस्य	राधा पाण्डे	सदस्य	विष्णुप्रसाद काफ्ले	सदस्य	बालकृष्ण शर्मा	सदस्य
केशवप्रसाद अधिकारी	सदस्य	बैकुण्ठप्रसाद गौतम	सदस्य	तिलक प्रसाद न्यौपाने	सदस्य	नरेन्द्र प्रसाद उपाध्याय	सदस्य
रेवतराम रेग्मी	सदस्य	हुमनाथ शर्मा	सदस्य	युदुनाथ पाण्डे	सदस्य	दीपक प्रसाद उपाध्याय	सदस्य
योगराज दंगाल	सदस्य	मणि पाठक	सदस्य	विजय उपाध्याय	सदस्य	रुद्र प्रसाद तिमिल्सेना	सदस्य
युवराज पौडेल	सदस्य	उत्तम शर्मा ढकाल	सदस्य	डा. शान्त शर्मा	सदस्य	विश्वराज उपाध्याय	सदस्य
गणेश गौतम	सदस्य	गण्डकी प्रदेश सदस्यः		डा. ज्ञानदेव कटुवाल	सदस्य	सोमप्रसाद दाहाल	सदस्य
किरण चौलागाईं	सदस्य	शारदा पौडेल	सदस्य	पशुपति सुवेदी	सदस्य	सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्यः	
भोलानाथ काफ्ले	सदस्य	डा. लक्ष्मीकान्त चापागाईं	सदस्य	केशराज निरौला	सदस्य	कविराज शर्मा	सदस्य
प्रेमप्रसाद कडरिया	सदस्य	माधव बराल	सदस्य	कालिदास न्यौपाने	सदस्य	ईश्वरराज सुवेदी	सदस्य
माधवप्रसाद पोखरेल	सदस्य	चिरञ्जीवी बराल	सदस्य	शशी पन्थी	सदस्य	बसन्तराज उप्रेती	सदस्य
ममता पौडेल	सदस्य	श्याम प्रसाद रेग्मी	सदस्य	लोकनाथ पाण्डे	सदस्य	होमनाथ जोशी	सदस्य
इन्द्रनाथ बास्तोला	सदस्य	ध्रुव पराजुली	सदस्य	रामप्रसाद उपाध्याय	सदस्य	योजना अधिकारी	सदस्य
दिनेश आचार्य	सदस्य	राजेन्द्र रमण पराजुली	सदस्य	हिमलाल भुसाल	सदस्य	जनकराज तिमिल्सेना	सदस्य
दुर्गा प्रसाद पोखरेल	सदस्य	राधामोहन पौडेल	सदस्य	तेजप्रसाद भण्डारी	सदस्य	नारायण प्रसाद तिमिल्सेना	सदस्य
हरिप्रसाद पोखरेल	सदस्य	रामप्रसाद अधिकारी	सदस्य	पुष्पराज कँडेल	सदस्य	भोजराज अवस्थी	सदस्य
मधेश प्रदेश सदस्यः		जीवन आचार्य गोर्खाली	सदस्य	जनकराम भण्डारी	सदस्य	गणेशदत्त लेखक	सदस्य
विजेश कुमार पाण्डेय	सदस्य	मीरादेवी आचार्य	सदस्य	ऋषिराम शर्मा	सदस्य	रघुनाथ जोशी	सदस्य
कार्तिकदेव पाण्डे	सदस्य	शंकर खराल	सदस्य	विष्णुप्रसाद गौतम	सदस्य	नारायणी उपाध्याय	सदस्य
प्रेमचन्द्र दुबे	सदस्य	छायाराम खनाल	सदस्य	रमा गौतम	सदस्य	टीकादेवी तिमिल्सेना	सदस्य
ज्ञानेश्वर तिवारी	सदस्य	रत्नमणि अधिकारी	सदस्य	शान्तिराज रेग्मी	सदस्य	वासुदेव पाण्डे	सदस्य
कामेश्वर मिश्र	सदस्य	गौकुमारी न्यौपाने पौडेल	सदस्य	गोविन्द गोरार्थोकी	सदस्य	प. गोकर्णप्रसाद बजगाईं	सदस्य
घनश्याम सापकोटा	सदस्य	खेमराज अधिकारी	सदस्य	सन्तोष रिजाल	सदस्य	लोकराज जोशी	सदस्य
मदन चौबे	सदस्य	विश्वेश्वर सुवेदी	सदस्य	दामोदर शर्मा	सदस्य	तर्कराज भट्ट	सदस्य
निरा भ्रा	सदस्य	सत्यप्रसाद खनाल	सदस्य	कर्णाली प्रदेश सदस्यः			
अमलेश्वर मिश्र	सदस्य	तुलसीराम उपाध्याय पौडेल	सदस्य	रामप्रसाद देवकोटा	सदस्य		
				गोमादेवी उपाध्याय	सदस्य		

समाजका वरिष्ठ सल्लाहकारज्यूहरू

- » भीमराज रेग्मी
- » लक्ष्मीप्रसाद संग्रौला
- » मायादेवी पाठक
- » प्रा.डा. गुरुप्रसाद सुवेदी
- » रुवयनाथ कोइराला
- » तुलसीराम ओली
- » रामकृष्ण उपाध्याय
- » चतुरास्वर अधिकारी
- » लोकनाथ आचार्य
- » वरिष्ठ अ. पद्मनाथ शर्मा
- » ध्रुवराज शर्मा अर्चल
- » सुकदेव गौतम (कालुनी सल्लाहकार)

चैत्र २०८३

MAR./APRIL 2027

नेपाल संवत् १९४७

आइतबार SUNDAY	सोमबार MONDAY	मंगलबार TUESDAY	बुधबार WEDNESDAY	बिहीबार THURSDAY	शुक्रबार FRIDAY	शनिबार SATURDAY
रुद्रा जुने दिनहरूः १, ५, ६, ७, ८, १२, १३, १४, १६, १८, २०, २१, २५, २८, २९ र ३०	चैत्र संक्रान्ति तिथिः सप्तमी ८:१८ नक्षत्रः रोहिणी ८:१२ योगः प्रीति करणः भद्रा योगाः प्रवर्द्ध च.राः १६:३० सु.उः ६:१६ सु.अः १८:११	तिथिः अष्टमी ७:७ नक्षत्रः मृगशिरा ६:४५ प्रा. योगः आयुष्मान करणः बालव योगाः रक्ष च.राः मिथुन सु.उः ६:१५ सु.अः १८:१२	तिथिः दशमी २६:२३ नक्षत्रः पुनर्वसु २७:२५ योगः सौभाग्य करणः तैतिल योगाः गद च.राः २१:५४ सु.उः ६:१४ सु.अः १८:१२	आमलकी एकादशी व्रत तिथिः एकादशी २४:०० नक्षत्रः ति २५:५५ योगः अतिगंड करणः वव योगाः शुभ च.राः कर्कट सु.उः ६:१३ सु.अः १८:१३	तिथिः द्वादशी २१:४३ नक्षत्रः श्लेषा २४:१७ योगः सुकर्म करणः बणिज योगाः मृत्यु च.राः २४:१७ सु.उः ६:१२ सु.अः १८:१४	तिथिः त्रयोदशी १५:३६ नक्षत्रः मघा २२:५५ योगः धृति करणः कौलव योगाः पक्ष च.राः सिंह सु.उः ६:११ सु.अः १८:१४
पूर्णमा व्रत, पहाडमा होली तिथिः चतुर्दशी १७:४४ नक्षत्रः पूर्वाफाल्गुनी २१:४५ योगः शूल करणः गर योगाः छत्र च.राः २७:३५ सु.उः ६:०५ सु.अः १८:१५	फागुपूर्णमा, तराई होली तिथिः पूर्णिमा १६:११ नक्षत्रः उत्तराफाल्गुनी २१:०२ योगः गंड करणः बालव योगाः श्रीवत्स च.राः कन्या सु.उः ६:०८ सु.अः १८:१५	तिथिः प्रतिपदा १५:०२ नक्षत्रः हस्त २०:३६ योगः वृद्धि करणः तैतिल योगाः सौम्य च.राः कन्या सु.उः ६:०७ सु.अः १८:१६	तिथिः द्वितीया १४:१६ नक्षत्रः चित्रा २०:४३ योगः ध्रुव करणः वव योगाः काल च.राः ८:३८ सु.उः ६:०६ सु.अः १८:१६	तिथिः तृतीया १४:०५ नक्षत्रः स्वाती २१:१६ योगः व्याघात करणः बणिज योगाः स्थिर च.राः तुला सु.उः ६:०५ सु.अः १८:१७	तिथिः चतुर्थी १४:२२ नक्षत्रः विशाखा २२:२० योगः हर्षण करणः कौलव योगाः मातङ्ग च.राः १६:१ सु.उः ६:०४ सु.अः १८:१७	तिथिः पंचमी १५:१० नक्षत्रः अनुराधा २३:५२ योगः वरियन करणः गर योगाः अमृत च.राः वृश्चिक सु.उः ६:०३ सु.अः १८:१८
तिथिः षष्ठी १६:२६ नक्षत्रः ज्येष्ठा २५:५० योगः सिद्धि करणः भद्रा योगाः काण च.राः २५:५० सु.उः ६:०२ सु.अः १८:१८	तिथिः सप्तमी २८:०५ नक्षत्रः मूल २८:१० योगः व्यतिपात करणः बालव योगाः लुम्ब च.राः धनु सु.उः ६:०० सु.अः १८:१६	तिथिः अष्टमी २०:०३ नक्षत्रः पूर्वाफाल्गुनी अहोरात्र योगः वरियन करणः बालव योगाः भिन्न च.राः धनु सु.उः ५:५५ सु.अः १८:१६	तिथिः नवमी २२:०८ नक्षत्रः पूर्वाफाल्गुनी ६:४६ योगः परिध करणः तैतिल योगाः श्रीवत्स च.राः १३:२२ सु.उः ५:५८ सु.अः १८:२०	तिथिः दशमी २४:१२ नक्षत्रः उत्तराफाल्गुनी ६:२० योगः शिव करणः वव योगाः धर्वाक्ष च.राः मकर सु.उः ५:५७ सु.अः १८:२०	पापजोचनी एकादशी व्रत तिथिः एकादशी २६:०३ नक्षत्रः श्रवण ११:५१ योगः सिद्धि करणः बणिज योगाः धूम्र च.राः २५:१ सु.उः ५:५६ सु.अः १८:२१	तिथिः द्वादशी २७:३४ नक्षत्रः धनिष्ठा १४:०६ योगः साध्य करणः कौलव योगाः प्रवर्द्ध च.राः कुम्भ सु.उः ५:५४ सु.अः १८:२२
तिथिः त्रयोदशी २८:३५ नक्षत्रः शतभिषा १६:०० योगः शुभ करणः गर योगाः रक्ष च.राः कुम्भ सु.उः ५:५४ सु.अः १८:२२	तिथिः चतुर्दशी २५:१४ नक्षत्रः पू.भा. १७:२६ योगः शुभ करणः भद्रा योगाः मुसल च.राः ११:७ सु.उः ५:५३ सु.अः १८:२३	तिथिः औसी २५:१५ नक्षत्रः उ.भा. १८:२२ योगः ब्रह्म करणः चतुष्पद योगाः सिद्धि च.राः मीन सु.उः ५:५२ सु.अः १८:२३	तिथिः प्रतिपदा २८:५३ नक्षत्रः रेवती १८:४५ योगः ऐंद्र करणः किंस्तुध्न योगाः उत्पात च.राः १८:४५ सु.उः ५:५० सु.अः १८:२४	तिथिः द्वितीया २७:५८ नक्षत्रः अश्लेषा १८:४७ योगः वैधृति करणः बालव योगाः मानस च.राः मेष सु.उः ५:४५ सु.अः १८:२४	तिथिः तृतीया २६:३८ नक्षत्रः भरणी १८:१६ योगः प्रीति करणः तैतिल योगाः मुद्गर च.राः २४:८ सु.उः ५:४८ सु.अः १८:२५	तिथिः चतुर्थी २४:५७ नक्षत्रः कृत्तिका १७:२८ योगः आयुष्मान करणः वव योगाः ध्वज च.राः वृष सु.उः ५:४७ सु.अः १८:२५
तिथिः पंचमी २२:५७ नक्षत्रः रोहिणी १६:१८ योगः सौभाग्य करणः बणिज योगाः धाता च.राः २७:३७ सु.उः ५:४६ सु.अः १८:२६	तिथिः षष्ठी २०:४५ नक्षत्रः मृगशिरा १४:५३ योगः शोभन करणः कौलव योगाः आनन्द च.राः मिथुन सु.उः ५:४५ सु.अः १८:२६	तिथिः सप्तमी १८:२३ नक्षत्रः आर्द्रा १३:१६ योगः अतिगंड करणः गर योगाः चर च.राः मिथुन सु.उः ५:४४ सु.अः १८:२७	व्रतबन्ध मुहूर्तहरूः ३, ४, १०, २५ र २८ गते अन्नप्राशन मुहूर्तहरूः ३, १०, १८ र २५ गते दोकानखोले दिनहरूः ४, १०, १८, २५, २८ र २ ५ गते	अग्नी जुने दिनः २, ३, ५, ७, ८, ११, १३ १४, १६, १८, २०, २२ २५, २७, २८ र ३० गते		